

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों के वित्त : 2010-11*

इस लेख में लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों के आधार पर 745 गैर-सरकारी गैर-वित्तीय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) कंपनियों के वर्ष 2010-11 के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है। सभी चुनिंदा कंपनियों के आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण समेकित आधार पर तथा प्रमुख मूल देश और उद्योग समूह के अनुसार किया गया है। चुनिंदा कंपनियों के समेकित परिणामों से ज्ञात होता है कि जहां 2010-11 के दौरान इन कंपनियों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई, वहीं व्यय की वृद्धि दर में बढ़ोतरी होने से निवल लाभ में कमी आई। लाभ मार्जिन की दृष्टि से लाभप्रदता तथा इक्विटी पर प्रतिलाभ में 2009-10 की तुलना में 2010-11 में कमी आई। फिर भी 2010-11 में उधारियों में वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक रही। रिजर्व और अधिशेष में मामूली बढ़ोतरी होने के चलते ऋण की आवश्यकता बढ़ गई। पिछले कुछ वर्षों के दौरान आस्ति निर्माण एवं अन्य गतिविधियों के वित्तपोषण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले निधियों के बाह्य स्रोतों (अर्थात् खुद के स्रोतों के अलावा) की हिस्सेदारी में 2010-11 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2010-11 में गैर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कंपनियों की तुलना में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कंपनियों की बिक्री और लाभ की वृद्धि दर कम रही। तथापि, एफडीआई कंपनियों के लाभ मार्जिन और इक्विटी पर प्रतिलाभ गैर-एफडीआई कंपनियों की तुलना में अधिक रहे। एफडीआई कंपनियों में 30 से 50 प्रतिशत एफडीआई हिस्सा रखने वाली कंपनियों का कार्य-निष्पादन अपेक्षाकृत बेहतर रहा।

इस लेख में 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कंपनियों¹ का 2010-11 का वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत किया गया है जो अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक के लेखापरीक्षित अंतिम वार्षिक लेखों पर आधारित है। चुनिंदा 745 एफडीआई कंपनियों में 493 पब्लिक लिमिटेड कंपनियां तथा 252 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं जिन्हें 2010-11 के गैर-सरकारी गैर-वित्तीय पब्लिक/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के

* सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग के कंपनी वित्त प्रभाग में तैयार किया गया। इसके पिछले अध्ययन का प्रकाशन भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के नवंबर 2011 अंक में किया गया था जिसमें 681 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कंपनियों के 2009-10 की अवधि के वित्त का अध्ययन किया गया था। वर्तमान अध्ययन में पिछले अध्ययन में शामिल 521 कंपनियों के अतिरिक्त 224 नई कंपनियों को शामिल किया गया है।

¹ कृपया एफडीआई कंपनियों की परिभाषा के लिए व्याख्यात्मक नोट देखें। यद्यपि, भारतीय संदर्भ में एफडीआई उद्यमों की पहचान 'स्थायी रुचि' के आधार पर की जाती है, फिर भी इस अध्ययन में ऐसी एफडीआई कंपनियों का भी चयन किया गया है जिनमें 10 प्रतिशत या अधिक इक्विटी की धारिता विदेशी निवेशकों की है।

वित्त संबंधी अध्ययन में शामिल किया गया था। चुनिंदा कंपनियों को प्रमुख 8 देश समूहों तथा 9 प्रमुख उद्योग समूहों में वर्गीकृत किया गया है। किसी कंपनी को उस देश समूह में वर्गीकृत किया जाता है जिसकी एफडीआई शेयर-धारिता सबसे अधिक हो। कंपनी के उद्योग समूहों का निर्धारण उस उद्योग समूह में किया जाता है जिससे उसकी 50 प्रतिशत से अधिक आय प्राप्त होती है। इसके अलावा, इस लेख में इन चुनिंदा 745 एफडीआई कंपनियों के निष्पादन की तुलना 4590 गैर-एफडीआई कंपनियों के निष्पादन से भी की गई है।

सारणी 1 से पता चलता है कि 'कंप्यूटर और संबद्ध गतिविधियां (81)', 'रसायन तथा रासायनिक उत्पाद (78)' तथा 'मशीनरी और मशीनी औजार (66)' एफडीआई के लिए सबसे पसंदीदा उद्योग थे। इसी प्रकार चुनिंदा एफडीआई कंपनियों में से अधिकांश कंपनियों ने मॉरीशस (179) से निवेश प्राप्त किया जिसके बाद यूएसए (114), यूके (66) तथा जर्मनी (61) का क्रम था।

अध्ययन के लिए जिन 745 एफडीआई कंपनियों को लिया गया है, नमूनों के रूप में इनकी कुछ सीमाएं हैं क्योंकि (अगस्त 1991 से मार्च 2011 तक) भारत में प्राप्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में इन चुनिंदा कंपनियों का हिस्सा केवल 4.8 प्रतिशत था²।

आय एवं व्यय

2010-11 में चुनिंदा 745 एफडीआई कंपनियों की बिक्री दर में काफी वृद्धि (16.0 प्रतिशत) हुई (सारणी 2, विवरण 1 एवं 3)। तथापि, विनिर्माण व्यय तथा कर्मचारियों के पारिश्रमिक की वृद्धि दर अधिक होने से ईबीआईटीडीए में कम बढ़ोतरी हुई और ईबीटी में कमी आई।

2010-11 में बिक्री की वृद्धि दर 'मोटर गाड़ियों तथा अन्य यातायात उपस्कर' और 'कंप्यूटर और संबद्ध गतिविधियों' को छोड़कर पिछले वर्ष की तुलना में सभी प्रमुख उद्योगों में अधिक रही (सारणी 2)। विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों के निवल लाभ में मामूली वृद्धि हुई और सेवा क्षेत्र उद्योगों के निवल लाभ में गिरावट आई।

मूल देश के आधार पर 2010-11 में यूके की एफडीआई कंपनियों के निवल लाभ में सर्वाधिक (22.0 प्रतिशत) वृद्धि हुई

² संदर्भ: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग द्वारा एफडीआई के संबंध में प्रकाशित तथ्यात्मक आंकड़े (अगस्त 1991 से मार्च 2011 तक)।

सारणी 1: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली चुनिंदा कंपनियों का उद्योगवार एवं मूल देशवार वर्गीकरण: 2010-11

(कंपनियों की संख्या)

सभी कंपनियां	यूके	यूएसए	जर्मनी	स्विटजरलैंड	जापान	फ्रांस	नीदरलैंड	मॉरीशस	अन्य	कुल
1. विनिर्माण	43	62	54	22	48	8	26	82	120	465
<i>जिसमें से</i>										
(i) खाद्य उत्पाद तथा पेय पदार्थ	7	6	2	1	-	-	3	7	8	34
(ii) रसायन तथा रासायनिक उत्पाद	7	7	7	5	5	2	5	11	29	78
(iii) रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	1	3	4	-	2	1	2	8	8	29
(iv) मशीनरी तथा मशीनी औजार	5	15	12	-	5	-	5	4	14	66
(v) विद्युत मशीनरी तथा उपकरण	3	2	4	3	4	1	1	6	8	32
(vi) मोटर गाड़ी तथा अन्य परिवहन उपस्कर	4	8	6	-	21	-	1	5	7	52
2. सेवाएं	15	41	5	3	4	6	5	77	67	223
<i>जिनमें से</i>										
(i) थोक तथा खुदरा व्यापार	2	4	-	1	2	-	-	6	10	25
(ii) परिवहन, भंडारण और संचार	2	1	1	-	1	-	-	8	10	23
(iii) कंप्यूटर और संबद्ध गतिविधियां	6	17	1	-	1	3	4	26	23	81
कुल (अन्य सहित)	66	114	61	25	52	16	31	179	201	745

जबकि जापान, यूएसए, स्विटजरलैंड और मॉरीशस की कंपनियों के निवल लाभ में काफी कमी आई।

चुनिंदा एफडीआई कंपनियों के निष्पादन की तुलना गैर-एफडीआई कंपनियों के निष्पादन से करने पर यह पाया गया कि 2010-11 के दौरान एफडीआई कंपनियों की बिक्री की वृद्धि दर गैर एफडीआई कंपनियों की तुलना में कुछ कम रही (सारणी 3)। इसके

अतिरिक्त, एफडीआई कंपनियों के निवल लाभ में कमी आई जबकि गैर एफडीआई कंपनियों के निवल लाभ की वृद्धि दर में कमी आई।

2010-11 में एफडीआई कंपनियों की लाभप्रदता में कमी आई और विशेष रूप से ईबीआईटीडीए मार्जिन (बिक्री के प्रतिशत के रूप में मापित) में 1.4 प्रतिशत की गिरावट आई (सारणी 4 एवं विवरण 2)। परंतु प्रतिधारण अनुपात (निवल लाभ की तुलना में प्रतिधारित

सारणी 2: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली चुनिंदा कंपनियों की बिक्री, ईबीआईटीडीए और निवल लाभ की वृद्धि दरें : 2009-10 और 2010-11

(प्रतिशत)

उद्योग/ मूल देश	कंपनियों की संख्या	बिक्री		ईबीआईटीडीए		निवल लाभ	
		2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
चुनिंदा उद्योग							
1. विनिर्माण	465	14.2	16.8	40.9	4.2	50.7	6.2
<i>जिसमें से</i>							
(i) खाद्य उत्पाद तथा पेय पदार्थ	34	16.0	22.1	16.2	6.3	29.2	4.2
(ii) रसायन तथा रासायनिक उत्पाद	78	7.6	17.5	51.5	11.5	47.3	16.5
(iii) रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	29	14.8	41.6	42.3	81.4	102.9	62.5
(iv) मशीनरी तथा मशीनी औजार	66	2.6	23.0	25.6	10.1	32.2	17.8
(v) विद्युत मशीनरी तथा उपकरण	32	7.2	10.2	19.5	-13.0	32.3	-13.5
(vi) मोटर गाड़ी तथा अन्य परिवहन उपस्कर	52	28.4	22.9	76.2	11.5	80.8	13.5
2. सेवाएं	223	7.2	16.3	40.5	5.9	40.8	-31.3
<i>जिसमें से</i>							
(i) थोक तथा खुदरा व्यापार	25	6.0	21.8	35.4	79.8	145.9	-53.1
(ii) परिवहन, भंडारण और संचार	25	5.7	14.6	21.9	-3.3	24.4	-62.6
(iii) कंप्यूटर और संबद्ध गतिविधियां	81	10.1	9.4	28.4	7.5	22.4	8.1
चुनिंदा मूल देश							
1. यूके	66	17.0	16.7	20.9	19.0	16.7	22.0
2. यूएसए	114	4.1	2.5	27.0	-12.6	28.9	-14.6
3. जर्मनी	61	6.9	14.9	77.1	#	35.2	2.9
4. स्विटजरलैंड	25	9.7	13.7	24.5	-14.4	18.3	-10.0
5. जापान	52	29.4	25.4	135.6	3.6	#	-30.0
6. फ्रांस	16	23.1	18.8	-3.7	10.8	-12.9	5.4
7. नीदरलैंड	31	7.9	18.4	34.3	10.5	42.9	16.3
8. मॉरीशस	179	7.7	12.8	25.7	1.4	33.0	-9.6
सभी अन्य कंपनियां (अन्य सहित)	745	12.4	16.0	37.4	5.6	42.4	-1.9

वियोजित स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण मानदंडों की वृद्धि दरों के लिए विवरण 7 एवं 8 देखें।

अंश अथवा हर ऋणात्मक अथवा शून्य अथवा नगण्य है।

**सारणी 3: गैर-विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली चुनिंदा कंपनियों की बिक्री, ईबीआईटीडीए और निवल लाभ की वृद्धि दरें :
2009-10 और 2010-11**

(प्रतिशत)

उद्योग	कंपनियों की संख्या	बिक्री		ईबीआईटीडीए		निवल लाभ	
		2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
चुनिंदा उद्योग							
1. विनिर्माण	2804	13.5	25.5	35.7	18.5	31.4	18.2
<i>जिसमें से</i>							
(i) खाद्य उत्पाद तथा पेय पदार्थ	297	13.6	28.5	101.2	-16.4	92.1	-34.4
(ii) रसायन तथा रासायनिक उत्पाद	515	2.9	18.8	125.8	15.4	49.6	21.1
(iii) रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	187	10.7	23.5	72.5	11.2	121.9	6.2
(iv) मशीनरी तथा मशीनी औजार	208	5.7	15.5	23.9	-7.7	-19.3	7.3
(v) विद्युत मशीनरी तथा उपकरण	130	-12.7	17.0	44.4	0.2	-107.8	#
(vi) मोटर गाड़ी तथा अन्य परिवहन उपस्कर	144	29.0	36.1	124.7	32.0	122.6	29.6
2. सेवाएं	1412	8.8	15.5	24.5	18.7	30.8	16.4
<i>जिसमें से</i>							
(i) थोक तथा खुदरा व्यापार	375	23.8	10.1	208.4	10.1	136.4	21.3
(ii) परिवहन, भंडारण और संचार	150	5.5	17.4	-5.1	20.0	-172.4	-7.0
(iii) कंप्यूटर और संबद्ध गतिविधियां	263	1.5	18.5	37.0	15.4	138.2	10.7
सभी कंपनियां (अन्य सहित)	4590	12.5	22.9	31.8	18.6	41.0	17.5

#: अंश अथवा हर ऋणात्मक अथवा शून्य अथवा नगण्य है।

लाभ) कम रहने से लाभांश दर (चुकता पूंजी के प्रतिशत के रूप में लाभांश) को बनाए रखा जा सका।

2010-11 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में चुनिंदा एफडीआई कंपनियों की इबीआईटीडीए मार्जिन गैर एफडीआई कंपनियों की

सारणी 4: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली चुनिंदा कंपनियों की लाभाप्रदता के चुनिंदा अनुपात तथा ईबीटी की तुलना में कर प्रावधान अनुपात: 2009-10 और 2010-11

(प्रतिशत)

उद्योग/ मूल देश	बिक्री की तुलना में ईबीआईटीडीए		इक्विटी पर प्रतिलाभ		इक्विटी की तुलना में कर प्रावधान *	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
चुनिंदा उद्योग						
1. विनिर्माण	15.0	13.4	17.7	16.2	31.0	30.1
<i>जिसमें से</i>						
(i) खाद्य उत्पाद तथा पेय पदार्थ	10.9	9.5	15.4	15.0	30.5	30.9
(ii) रसायन तथा रासायनिक उत्पाद	15.2	14.4	21.2	21.6	27.5	26.0
(iii) रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	12.8	16.4	8.9	12.5	23.9	30.7
(iv) मशीनरी तथा मशीनी औजार	13.5	12.0	15.6	16.4	35.5	33.1
(v) विद्युत मशीनरी तथा उपकरण	13.3	10.5	20.8	15.8	31.3	30.5
(vi) मोटर गाड़ी तथा अन्य परिवहन उपस्कर	11.9	10.8	20.5	19.6	31.5	28.8
2. सेवाएं	16.0	14.5	12.2	7.7	15.8	16.9
<i>जिसमें से</i>						
(i) थोक तथा खुदरा व्यापार	-3.3	-0.6	22.0	9.4	35.4	36.9
(ii) परिवहन, भंडारण और संचार	23.5	19.9	10.7	3.8	8.8	7.4
(iii) कंप्यूटर और संबद्ध गतिविधियां	22.9	22.5	17.7	16.6	17.0	17.6
चुनिंदा मूल देश						
1. यूके	19.4	19.7	21.7	22.8	32.5	30.8
2. यूएसए	20.3	17.3	20.3	15.6	26.5	29.9
3. जर्मनी	-0.5	2.2	16.7	15.2	29.6	33.0
4. स्विटजरलैंड	19.0	14.3	23.2	18.8	30.9	29.6
5. जापान	12.5	10.3	14.7	8.6	28.3	26.3
6. फ्रांस	11.9	11.1	17.6	16.2	29.9	30.1
7. नीदरलैंड	12.4	11.6	19.7	19.3	34.4	32.7
8. मॉरीशस	19.5	17.5	13.9	10.8	18.8	18.5
सभी अन्य कंपनियां (अन्य सहित)	15.4	14.0	15.2	13.0	26.7	26.7

वियोजित स्तर पर अन्य महत्वपूर्ण अनुपातों के लिए विवरण 10 एवं 11 देखें।

* संबंधित वर्षों में लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों के आधार पर गणना की गई है।

सारणी 5: गैर-विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली चुनिंदा कंपनियों के लाभाप्रदता के चुनिंदा अनुपात तथा ईबीटी की तुलना में कर प्रावधान अनुपात : 2009-10 और 2010-11

(प्रतिशत)

उद्योग	बिक्री की तुलना में ईबीआईटीडीए		इक्विटी पर प्रतिलाभ		ईबीटी की तुलना में कर प्रावधान *	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
चुनिंदा उद्योग						
1. विनिर्माण	12.2	11.5	12.6	12.7	23.5	24.9
जिसमें से						
(i) खाद्य उत्पाद तथा पेय पदार्थ	7.0	4.5	11.2	6.3	20.7	29.5
(ii) रसायन तथा रासायनिक उत्पाद	10.8	10.5	14.5	14.7	24.5	25.1
(iii) रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	14.0	12.6	19.0	16.8	27.6	28.5
(iv) मशीनरी तथा मशीनी औजार	5.8	4.6	13.2	12.0	34.9	34.9
(v) विद्युत मशीनरी तथा उपकरण	8.3	7.1	-0.3	3.5	28.2	33.6
(vi) मोटर गाड़ी तथा अन्य परिवहन उपस्कर	10.7	10.4	16.5	16.6	22.2	23.8
2. सेवाएं	14.7	15.1	9.0	9.0	24.8	26.3
जिसमें से						
(i) थोक तथा खुदरा व्यापार	1.9	1.9	6.2	4.7	29.4	24.5
(ii) परिवहन, भंडारण और संचार	11.5	11.8	-3.1	-3.3	25.8	32.2
(iii) कंप्यूटर और संबद्ध गतिविधियां	25.1	24.4	23.0	21.7	22.9	24.8
सभी कंपनियां (अन्य सहित)	12.8	12.3	11.5	11.4	23.8	25.2

* संबंधित वर्षों में लाभ कमाने करने वाली कंपनियों के आधार पर गणना की गई है।

तुलना में अधिक थी (सारणी 5), जबकि सेवा क्षेत्र की कंपनियों में ईबीआईटीडीए मार्जिन गैर एफडीआई कंपनियों से अधिक थी और इक्विटी पर प्रतिफल की स्थिति भी ऐसी ही थी। विनिर्माण क्षेत्र की एफडीआई कंपनियों में ईबीटी की तुलना में कर प्रावधान का अनुपात काफी अधिक था।

विदेशी मुद्राओं में आय और व्यय

चुनिंदा एफडीआई कंपनियों की विदेशी मुद्रा की कुल आय में 2009-10 के 0.6 प्रतिशत कमी की तुलना में 2010-11 में 10.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई (विवरण 1 एवं 6)। 2010-11 के दौरान विदेशी मुद्रा आय में वस्तुओं के निर्यात की हिस्सेदारी बढ़कर 66.6 प्रतिशत (पिछले वर्ष के 63.1 प्रतिशत) हो गई। 2010-11 में बिक्री में निर्यात का योगदान (बिक्री की तुलना में निर्यात का अनुपात) लगभग पिछले वर्ष के समान रहा (विवरण 2)। विदेशी मुद्राओं में किए गए व्यय की वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई। वाणिज्य वस्तुओं के आयात के मूल्य में 2009-10 के 0.6 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चुनिंदा कंपनियों का विदेशी मुद्राओं में लाभांश का विप्रेषण दोगुना हो गया और यह 2009-10 में विदेशी मुद्राओं में किये गये कुल व्यय के 3.6 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 में 6.4 प्रतिशत रहा।

2010-11 के दौरान 'इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण' 'मोटर गाड़ी तथा अन्य यातायात उपस्कर' उद्योगों को छोड़कर

विनिर्माण उद्योग की अधिकांश चुनिंदा एफडीआई कंपनियों के आयात में वृद्धि हुई (सारणी 6 एवं विवरण 7)। यूके, फ्रांस और नीदरलैंड की अधिकांश हिस्सेदारी वाली एफडीआई कंपनियों के आयात में वृद्धि हुई। निर्यात के संबंध में, 2010-11के दौरान 'खाद्य उत्पाद और पेय पदार्थ', 'परिवहन, भंडारण और संचार तथा 'कंप्यूटर और संबद्ध गतिविधियों' को छोड़कर सभी उद्योग समूहों में वृद्धि हुई। जर्मनी और स्वीजरलैंड की हिस्सेदारी वाली अधिकांश एफडीआई कंपनियों के निर्यात में काफी वृद्धि हुई।

एफडीआई और गैर-एफडीआई कंपनियों के कारोबार के निष्पादन की तुलना करने पर यह पाया गया कि 2010-11 में आयात और निर्यात दोनों ही दृष्टि से गैर-एफडीआई कंपनियों की वृद्धि दर एफडीआई कंपनियों की वृद्धि दर से अधिक रही। एफडीआई कंपनियों का बिक्री की तुलना में निर्यात का अनुपात 2010-11 में गैर-एफडीआई कंपनियों से कम बना रहा।

देयताएँ और आस्तियाँ

2010-11 में 99,23,673 मिलियन रुपये के साथ चुनिंदा 745 एफडीआई कंपनियों की कुल देयताओं/आस्तियों की वृद्धि दर (16.5 प्रतिशत) उच्चतर रही (विवरण 1 एवं 4)। जहां निवल मालियत में 14.6 प्रतिशत की न्यून दर (2009-10 में 18.3 प्रतिशत) से वृद्धि

सारणी 6: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली चुनिंदा कंपनियों के निर्यात और आयात में वृद्धि: 2009-10 और 2010-11

(प्रतिशत)

उद्योग/ मूल देश	निर्यात में वृद्धि		आयात में वृद्धि		बिक्री की तुलना में निर्यात	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
चुनिंदा उद्योग						
1. विनिर्माण	-1.5	14.7	-1.1	20.8	15.6	15.4
<i>जिसमें से</i>						
(i) खाद्य उत्पाद तथा पेय पदार्थ	8.4	68.1	23.6	-11.5	6.3	8.7
(ii) रसायन तथा रासायनिक उत्पाद	2.5	18.3	-13.5	29.6	21.9	22.0
(iii) रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	3.5	115.3	28.0	43.9	15.6	23.7
(iv) मशीनरी तथा मशीनी औजार	-19.0	25.2	-8.9	28.1	17.6	17.9
(v) विद्युत मशीनरी तथा उपकरण	6.6	-2.0	0.4	5.0	13.0	11.6
(vi) मोटर गाड़ी तथा अन्य परिवहन उपस्कर	15.7	-9.7	-6.1	32.1	15.2	11.2
2. सेवाएं	56.2	13.6	1.5	2.4	3.0	3.0
<i>जिसमें से</i>						
(i) थोक तथा खुदरा व्यापार	32.9	1.4	6.3	36.5	2.7	2.2
(ii) परिवहन, भंडारण और संचार	#	67.2	-4.7	-45.1	0.1	0.2
(iii) कंप्यूटर और संबद्ध गतिविधियां	80.2	17.1	4.3	-17.7	7.7	8.2
चुनिंदा मूल देश						
1. यूके	1.2	34.5	13.0	8.3	10.9	12.6
2. यूएसए	3.4	6.9	-5.4	14.3	16.5	17.2
3. जर्मनी	-14.9	0.7	1.6	34.0	8.2	7.2
4. स्विट्जरलैंड	9.4	15.7	4.5	25.6	10.4	10.6
5. जापान	16.4	3.5	18.6	4.0	12.2	10.0
6. फ्रांस	-16.2	31.2	21.1	22.5	5.8	6.5
7. नीदरलैंड	-29.3	33.5	3.6	18.5	10.0	11.2
8. मॉरीशस	-10.3	20.0	-5.3	15.7	8.4	8.9
सभी अन्य कंपनियां (अन्य सहित)	0.8	16.3	0.6	15.9	12.3	12.3

अंश अथवा हर ऋणात्मक अथवा शून्य अथवा नगण्य है।

हुई, वहीं 2010-11 में कुल उधारियों में 17.3 प्रतिशत (2009-10 में 7.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। बैंकों से ली गई उधारियों के चलते उधारियां उच्चतर रहीं।

2010-11 के दौरान 'रिजर्व तथा अधिशेष' 41.3 प्रतिशत की मामूली कम हिस्सेदारी के साथ प्रमुख मद बना रहा (सारणी 8) जिसके बाद 'उधारियां' (26.0 प्रतिशत) तथा 'व्यापार शेष और

सारणी 7: गैर-विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली चुनिंदा कंपनियों के निर्यात और आयात में वृद्धि : 2009-10 और 2010-11

(प्रतिशत)

उद्योग	निर्यात में वृद्धि		आयात में वृद्धि		बिक्री की तुलना में निर्यात	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1. विनिर्माण	6.2	28.3	20.1	20.8	23.9	24.5
<i>जिसमें से</i>						
(i) खाद्य उत्पाद तथा पेय पदार्थ	-26.6	54.0	59.3	26.2	9.8	11.8
(ii) रसायन तथा रासायनिक उत्पाद	9.1	17.2	-22.0	27.9	24.3	24.0
(iii) रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	2.0	26.2	18.8	34.0	14.7	15.0
(iv) मशीनरी तथा मशीनी औजार	-25.8	-5.1	-2.4	3.5	7.9	6.5
(v) विद्युत मशीनरी तथा उपकरण	-52.6	-20.7	-34.7	33.2	13.5	9.2
(vi) मोटर वाहन तथा अन्य परिवहन उपस्कर	-0.7	52.9	-14.5	27.5	9.8	11.0
2. सेवाएं	-2.9	0.1	3.7	1.1	5.7	5.0
<i>जिसमें से</i>						
(i) थोक तथा खुदरा व्यापार	-5.6	-8.8	36.5	-15.2	19.4	16.1
(ii) यातायात, भंडारण तथा संचार	141.8	24.5	-31.3	-17.9	1.1	1.1
(iii) कंप्यूटर और संबद्ध गतिविधियां	-15.3	13.4	17.9	36.5	2.5	2.4
सभी कंपनियां (अन्य सहित)	4.7	27.6	16.4	18.7	18.4	19.1

सारणी 8: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली एवं गैर-विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली चुनिंदा कंपनियों की देयताओं की संरचना

(प्रतिशत)

देयताएं	एफडीआई		गैर-एफडीआई	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1. शेयर पूंजी	6.1	5.8	5.3	5.0
2. रिजर्व और अधिशेष	41.8	41.3	38.3	38.4
3. उधार	25.8	26.0	34.0	33.2
जिसमें से, बैंकों से	14.8	15.8	20.8	20.6
4. व्यापार बकाया और अन्य चालू देयताएं	21.5	22.7	18.9	20.1
5. अन्य देयताएं	4.8	4.3	3.5	3.3
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0

अन्य चालू देयताएं' (22.7 प्रतिशत) का क्रम था। गैर-एफडीआई कंपनियों की तुलना में एफडीआई कंपनियों में जहां 'रिजर्व तथा अधिशेष' का हिस्सा अधिक रहा वहीं 'उधारियां' का हिस्सा कम रहा।

सकल स्थायी आस्तियों में (पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजित) 2009-10 के 13.8 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 में 12.6 प्रतिशत की कम वृद्धि दर्ज हुई। इसके परिणामस्वरूप कुल आस्तियों में 'निवल स्थायी आस्तियों के हिस्से में 1.9 प्रतिशत की कमी आई जबकि 'इन्वेंटरी' के हिस्से में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

गैर-एफडीआई कंपनियों की तुलना में एफडीआई कंपनियों में 'निवल स्थायी आस्तियां' का हिस्सा अधिक रहा जबकि 'ऋण और अग्रिम तथा अन्य देनदार शेष' का हिस्सा कम रहा।

सारणी 9: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली एवं गैर-विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली चुनिंदा कंपनियों की आस्तियों की संरचना

(प्रतिशत)

देयताएं	एफडीआई		गैर-एफडीआई	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1. निवल अचल आस्तियां	38.5	36.6	37.5	34.2
2. इन्वेंटरियां	10.0	11.1	11.3	11.8
3. ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य लेनदार बकाया	22.3	22.7	23.8	25.9
4. निवेश	19.5	18.5	18.0	16.8
5. नकद एवं बैंक शेष राशि	8.0	7.4	6.4	6.7
6. अन्य आस्तियां	1.8	3.7	3.1	4.5
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0

निधियों के स्रोत और उपयोग :

चुनिंदा 745 एफडीआई कंपनियों के निधियों के स्रोतों और उपयोग के विश्लेषण से पता चलता है कि निधियों में कुल स्रोतों में निधियों के बाहरी स्रोतों का हिस्सा 2009-10 के 43.5 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर 2010-11 में 62.5 प्रतिशत हो गया (सारणी 10) क्योंकि 'उधारियों और व्यापार बकाया और अन्य चालू देयताओं' की मात्रा में बढ़ोतरी हुई थी। दूसरी ओर, रिजर्व तथा अधिशेष एवं प्रावधान में कमी होने के कारण 2010-11 में निधियों के आंतरिक स्रोतों का हिस्सा घटकर 37.5 प्रतिशत रह गया। 2010-11 में गैर-एफडीआई कंपनियों की तुलना में एफडीआई कंपनियों में निधियों के आंतरिक स्रोतों का अनुपात भी अधिक था।

जहां तक निधियों के उपयोग की बात है, इसका उपयोग मुख्यतः मूल कारोबार में अतिरिक्त निवेश के रूप में किया गया क्योंकि अधिशेष 'इन्वेंटरियां' के हिस्से में तेजी से गिरावट आई थी (सारणी 11)। तथापि, 'सकल स्थायी आस्ति' निर्माण का हिस्सा कम रहा जबकि 'इन्वेंटरी' एवं 'ऋण और अग्रिम तथा अन्य देनदार शेष' के हिस्से में बढ़ोतरी हुई थी। गैर-एफडीआई कंपनियों से तुलना करने पर पाया गया कि वर्ष 2009-10 में एफडीआई कंपनियों में सकल स्थायी आस्तियों का हिस्सा अधिक था जबकि 'ऋण और अग्रिम तथा अन्य देनदार शेष' का हिस्सा कम रहा था।

सारणी 10: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली एवं गैर-विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली चुनिंदा कंपनियों की निधियों के स्रोतों की संरचना

(प्रतिशत)

निधियों के स्रोत	एफडीआई		गैर-एफडीआई	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
I आंतरिक स्रोत	56.5	37.5	48.2	35.8
(अ) चुकता पूंजी+	-0.3	0.7	1.0	0.4
(आ) रिजर्व और अधिशेष	31.8	20.4	29.0	23.1
(इ) प्रावधान	25.0	16.3	18.2	12.2
जिसमें से:				
(i) मूल्यहास	18.1	15.3	16.1	10.6
(ii) लाभांश	5.8	0.5	1.6	0.7
II बाह्य स्रोत	43.5	62.5	51.8	64.2
(अ) चुकता पूंजी	16.3	14.4	20.2	14.6
(आ) उधारियां	12.1	22.8	16.1	25.8
जिसमें: बैंकों से	6.2	18.4	4.7	17.4
(इ) व्यापार देयताएं और अन्य चालू देयताएं	12.7	25.2	15.3	23.7
(ई) अन्य देयताएं	2.4	0.2	0.3	-
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0

+ ऋणात्मक चिह्न वर्ष के दौरान देयताओं में आई गिरावट दर्शाता है।

- शून्य अथवा नगण्य

सारणी 11: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली एवं गैर-विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली चुनिंदा कंपनियों के निधियों के उपयोग की संरचना

(प्रतिशत)

निधियों के उपयोग	एफडीआई		गैर-एफडीआई	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
I सकल अचल आस्तियां	46.1	36.3	39.9	24.9
II इनवेंटरियां	4.7	15.4	11.6	13.1
III ऋण एवं अग्रिम एवं अन्य लेनदार बकाया	16.8	21.4	19.1	33.7
IV निवेश	30.9	10.4	22.9	9.1
V नकद एवं बैंक बकाया	2.2	3.3	5.6	7.9
VI अन्य आस्तियां+	-0.7	13.2	1.0	11.3
कुल	100.0	100.0	100.0	100.0

+ ऋणात्मक चिह्न वर्ष के दौरान देयताओं में आई गिरावट दर्शाता है।

इक्विटी की तुलना में ऋण

चुनिंदा एफडीआई कंपनियों की इक्विटी की तुलना में ऋण का अनुपात समग्र स्तर पर 2009-10 के 37.6 से घटकर 2010-11 में 34.5 प्रतिशत रह गया। परंतु, 'रसायन और रासायनिक उत्पाद', 'मशीनरी और मशीन उपकरण' तथा 'मोटर गाड़ियां तथा अन्य परिवहन उपस्कर' एवं 'कंप्यूटर और संबद्ध गतिविधियों' के उद्योग समूहों में अनुपात में मामूली बढ़ोतरी हुई थी। गैर-एफडीआई कंपनियों का इक्विटी की तुलना में ऋण अनुपात तुलनात्मक दृष्टि से एफडीआई कंपनियों से अधिक रहा, यद्यपि 2010-11 के दौरान इसमें भी गिरावट आई।

एफडीआई की हिस्सेदारी के अनुसार एफडीआई कंपनियों का निष्पादन

एफडीआई की हिस्सेदारी के अनुसार एफडीआई कंपनियों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2010-11 के दौरान 30 प्रतिशत से 50

सारणी 12: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली एवं गैर-विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली चुनिंदा कंपनियों की इक्विटी की तुलना में ऋण

(प्रतिशत)

उद्योग	एफडीआई		गैर-एफडीआई	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
1. विनिर्माण	33.4	31.5	41.5	38.5
<i>जिसमें से</i>				
(i) खाद्य उत्पाद तथा पेय पदार्थ	48.9	33.1	71.0	62.7
(ii) रसायन तथा रासायनिक उत्पाद	14.1	14.4	44.2	42.3
(iii) रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद	32.9	28.5	60.4	55.2
(iv) मशीनरी तथा मशीनी औजार	13.6	15.0	23.6	20.4
(v) विद्युत मशीनरी तथा उपकरण	6.9	5.4	44.3	38.2
(vi) मोटर वाहन तथा अन्य परिवहन उपस्कर	30.0	30.8	65.0	44.1
2. सेवाएं	43.2	40.2	43.3	39.7
<i>जिनमें से</i>				
(i) थोक तथा खुदरा व्यापार	6.2	3.8	29.9	16.3
(ii) परिवहन, भंडारण और संचार	61.6	58.9	74.7	79.3
(iii) कंप्यूटर और संबद्ध गतिविधियां	12.5	13.3	10.0	9.4
सभी कंपनियां (अन्य सहित)	37.6	34.5	45.4	43.0

प्रतिशत की विदेशी हिस्सेदारी वाली कंपनियों का निष्पादन अन्य कंपनियों की तुलना में बेहतर रहा। बिक्री, ईबीआईटीडीए और निवल आस्तियों में वृद्धि के संबंध में, इस समूह ने अधिक स्तर की वृद्धि दर्ज की (सारणी 13)। लाभ मार्जिन की दृष्टि से, 2010-11 के दौरान 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की एफडीआई हिस्सेदारी वाली कंपनियों का निष्पादन श्रेष्ठ रहा जबकि 50 प्रतिशत और उससे अधिक की एफडीआई हिस्सेदारी वाली कंपनियों का निष्पादन समूह में सबसे कम रहा।

सारणी 13: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की हिस्सेदारी के अनुसार कंपनियों का कार्य-निष्पादन

(प्रतिशत)

अ. चुनिंदा मदों की वृद्धि दर	कंपनियों की संख्या	बिक्री		ईबीआईटीडीए		कुल निवल आस्तियां	
		2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
विदेशी हिस्सेदारी समूह							
10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत	143	10.7	9.1	33.0	-6.3	8.3	17.2
20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत	94	15.4	18.8	28.3	20.7	13.7	12.1
30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत	59	7.6	28.3	16.0	24.9	18.5	21.4
40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	67	11.3	26.6	11.6	32.2	33.3	32.2
50 प्रतिशत और उससे अधिक	382	13.2	17.1	60.7	7.1	15.3	14.4
आ. चुनिंदा वित्तीय अनुपात		बिक्री की तुलना में ईबीआईटीडीए			इक्विटी की तुलना में ऋण		
		2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
विदेशी हिस्सेदारी समूह							
10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत	18.5	22.2	19.1	39.6	35.3	32.0	
20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत	11.7	13.0	13.2	42.3	48.6	48.5	
30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत	13.2	14.3	13.9	35.1	32.1	28.0	
40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत	16.8	16.8	17.6	23.6	34.8	29.7	
50 प्रतिशत और उससे अधिक	8.0	11.4	10.4	39.9	37.3	34.2	

समापन

चुनिंदा 745 एफडीआई कंपनियों के समग्र परिणामों से पता चलता है कि जहां इनकी बिक्री की वृद्धि दर में सुधार हुआ वहीं इन कंपनियों के लाभ में 2010-11 में कमी आई। कर्मचारियों के वेतन एवं विनिर्माण व्यय में अधिक वृद्धि के कारण लाभ में कमी आई। ईबीआईटीडीए मार्जिन और इक्विटी पर प्रतिफल 2010-11 में कम हुआ। रिज़र्व एवं अधिशेषों में कम वृद्धि होने से निधियों के आंतरिक

स्रोतों के हिस्से में काफी कमी आई, इसका कारण कम लाभ का होना था और इसके अनुरूप उधार की आवश्यकता बढ़ गई।

2010-11 में गैर-एफडीआई कंपनियों की तुलना में एफडीआई कंपनियों की बिक्री और लाभ में वृद्धि की दर कम रही। परंतु, गैर-एफडीआई कंपनियों की तुलना में एफडीआई कंपनियों के लाभ मार्जिन, शेयर धारकों की इक्विटी पर प्रतिलाभ का स्तर उच्चतर था। एफडीआई कंपनियों के बीच 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की एफडीआई हिस्सेदारी वाली कंपनियों का कार्य-निष्पादन अपेक्षाकृत बेहतर रहा।

विवरण 1: चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों की चुनिंदा मदों की वृद्धि दरें, 2009-10 एवं 2010-11

मद	(प्रतिशत)	
	2009-10	2010-11
	1	2
1 बिक्री +	12.4	16.0
2 उत्पादन मूल्य	11.8	17.6
3 कुल आय	11.9	16.7
4 विनिर्माण व्यय	9.5	21.3
5 कर्मचारी पारिश्रमिक	11.4	17.8
6 परिचालन व्यय (मूल्यहास, ब्याज और कर को छोड़कर)	8.2	19.8
7 ईबीआईटीडीए	37.4	5.6
8 मूल्यहास प्रावधान	17.0	13.8
9 ईबीआईटी	38.0	1.5
10 ब्याज	9.5	6.9
11 परिचालनेतर अधिशेष / घाटे के पूर्व ईबीटी	44.9	0.5
12 परिचालनेतर अधिशेष / घाटा	-13.3	-23.3
13 कर पूर्व लाभ	40.2	-0.7
14 कर प्रावधान	34.9	2.4
15 निवल लाभ	42.4	-1.9
16 प्रदत्त लाभांश	52.2	13.9
17 प्रतिधारित लाभ	38.6	-8.9
18 सकल लाभ	29.0	0.2
19 (क) सकल योजित मूल्य	26.2	8.1
(ख) निवल योजित मूल्य	28.2	7.0
20 निवल मालियत @	18.3	14.6
21 कुल उधार @	7.5	17.3
जिसमें से बैंकों से @	6.6	24.4
22 व्यापार देनदारियां और अन्य चालू देयताएं @	9.5	22.8
23 (क) सकल अचल आस्तियां @	13.8	12.6
(ख) निवल अचल आस्तियां @	12.0	10.6
24 इन्वेंटरी @	7.5	30.2
25 (क) सकल भौतिक आस्तियां @	12.8	15.3
(ख) निवल भौतिक आस्तियां @	11.1	14.7
26 (क) कुल सकल आस्तियां @	14.4	16.6
(ख) कुल निवल आस्तियां @	13.8	16.5
27 विदेशी मुद्रा में कुल आय	-0.6	10.2
जिसमें से निर्यात	0.8	16.3
28 विदेशी मुद्रा में कुल व्यय	1.0	17.3
जिसमें से आयात	0.6	15.9

+ 'छूट और बढ़ा' तथा 'उत्पाद शुल्क और उपकर' घटाकर।

@ पुनर्मूल्यन आदि के लिए समायोजित।

टिप्पणी: सभी मदों की वृद्धि दरों को कंपनियों के सम्मेलन के कारण होने वाले परिवर्तन के लिए समायोजित किया गया है।

विवरण 3: चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों की संयुक्त आय, उत्पादन का मूल्य, व्यय और विनियोजन लेखा, 2008-09 से 2010-11

(₹ मिलियन)

मद	2008-09	2009-10	2010-11
	1	2	3
आय और उत्पादन मूल्य			
1 बिक्री +	57,29,227	64,39,901	74,72,354
2 स्टॉक में वृद्धि (+) अथवा कमी (-) तैयार माल तथा चालू कार्य के स्टॉक के मूल्य में	59933	34989	1,44,964
3 उत्पादन मूल्य (1+2)	57,89,160	64,74,890	76,17,318
4 अन्य आय	2,34,261	2,75,300	2,75,103
जिसमें से: (क) लाभांश	22,805	20,132	26,980
(ख) ब्याज	48,497	57,502	58,835
(ग) किराया	3,252	3,404	3,576
5 परिचालनेतर अधिशेष (+)/घाटा (-)	50,273	43,604	33,448
6 कुल (3+4+5)	60,73,694	67,93,794	79,25,869
व्यय और विनियोग			
7 खपाया गया कच्चा माल, घटक आदि	26,70,603	29,81,093	36,75,833
8 भंडार और खपाए गए पुर्जे आदि	1,24,006	1,33,053	1,62,442
9 बिजली और ईंधन	3,46,288	3,08,823	3,58,996
10 अन्य विनिर्माण व्यय	5,29,257	5,96,278	6,79,423
11 वेतन, मजदूरी और बोनस	3,69,246	4,11,831	4,87,273
12 भविष्य निधि	22,930	26,555	29,864
13 कर्मचारी कल्याण व्यय	40,948	44,067	51,222
14 प्रबंधकीय पारिश्रमिक	18,509	22,392	24,060
15 रायल्टी	28,923	38,222	56,138
16 भवनों की मरम्मत	9,353	9,608	10,526
17 मशीनरी की मरम्मत	42,416	48,847	58,983
18 अशोध्य ऋण	21,148	24,058	19,575
19 बिक्री कमीशन	89,365	1,04,068	1,23,623
20 किराया	46,715	50,586	57,708
21 दरें व कर	20,245	24,140	31,783
22 विज्ञापन	1,02,626	1,22,575	1,40,152
23 बीमा	8,851	9,738	10,816
24 अनुसंधान और विकास	40,566	45,000	53,017
25 अन्य व्यय	5,24,289	4,75,113	5,30,331
26 अन्य प्रावधान (कर और मूल्यहास से इतर)	13,141	9,759	11,500
27 ईबीआईटीडीए	7,19,735	9,89,085	10,44,054
28 मूल्यहास प्रावधान	2,48,796	2,91,012	3,31,279
29 ईबीआईटी	7,05,199	9,73,373	9,87,877
30 घटाए ब्याज	1,37,550	1,50,658	1,61,017
31 कर पूर्व लाभ एवं परिचालनेतर अधिशेष (+)/घाटा(-)	5,67,649	8,22,715	8,26,860
32 परिचालनेतर अधिशेष (+)/घाटा (-)	50,273	43,604	33,448
33 कर पूर्व लाभ	6,17,922	8,66,319	8,60,308
34 घटाए कर प्रावधान	1,82,549	2,46,334	2,52,282
35 निवल लाभ	4,35,373	6,19,986	6,08,026
36 लाभांश	1,22,821	1,86,956	2,13,001
(क) सामान्य	1,21,844	1,85,050	2,11,928
(ख) अधिमान	977	1,905	1,073
37 प्रतिधारित लाभ	3,11,965	4,32,378	3,93,698
38 कुल (7 से 26 + 28 + 32)	60,73,694	67,93,794	79,25,869

+ : 'छूट और बढ़ा' तथा 'उत्पाद शुल्क और उपकर' घटाकर

**विवरण 4: चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों का संयुक्त तुलन-पत्र,
2008-09 से 2010-11**

(₹ मिलियन)

पूंजी और देयताएं	2008-09	2009-10	2010-11
	1	2	3
क. शेयर पूंजी	4,88,236	5,16,408	5,73,390
1 प्रदत्त पूंजी	4,87,584	5,15,748	5,72,730
(क) साधारण	4,18,336	4,50,878	4,85,298
जिसमें से: बोनस	68,304	71,467	76,698
(ख) अधिमान	69,248	64,871	87,431
2 जब्त शेयर	652	660	660
ख. रिजर्व और अधिशेष	29,56,782	35,57,598	40,95,481
3 पूंजी रिजर्व	11,57,254	13,24,027	14,83,384
जिसमें से: शेयरों पर प्रीमियम	10,13,693	11,53,410	13,03,687
4 निवेश अनुमत रिजर्व	2,055	1,438	1,413
5 ऋण शोधन निधि	18,034	21,883	32,006
6 अन्य रिजर्व	17,79,439	22,10,250	25,78,679
ग. उधार	20,40,745	21,97,061	25,76,873
7 डिबेंचर @	1,10,952	1,64,349	1,92,949
8 ऋण और अग्रिम	17,68,455	18,80,235	22,39,598
(क) बैंकों से	11,78,864	12,57,009	15,63,412
जिसमें से: अल्पावधि उधार	5,66,230	5,04,354	7,82,169
(ख) अन्य भारतीय वित्तीय संस्थाओं से	55,217	67,219	84,560
(ग) विदेशी संस्थागत एजेंसियों से	3,54,925	3,37,344	3,72,983
(घ) सरकारी और अर्ध-सरकारी निकायों से	22,889	20,248	16,528
(च) कंपनियों से	40,515	59,281	72,128
(छ) अन्य से	1,16,046	1,39,135	1,29,987
9 आस्थगित भुगतान	1,55,469	1,37,851	1,24,947
10 सार्वजनिक जमाराशियां	5,869	14,626	19,379
कुल उधार राशियों में कर्ज	13,35,793	15,32,187	16,08,927
घ. व्यापार देनदारियां और अन्य चालू देयताएं	16,74,535	18,33,881	22,52,224
11 विविध लेनदार	9,73,663	11,08,122	13,16,317
12 स्वीकृतियां	1,55,591	1,38,309	1,85,795
13 कंपनियों की तुलना में देयताएं	3,790	3,451	10,764
14 ग्राहकों, एजेंटों आदि से अग्रिम/जमाराशि	2,94,632	3,19,736	4,10,999
15 ऋण पर उपचित ब्याज	17,980	14,518	16,160
16 अन्य	2,28,879	2,49,746	3,12,190
ङ. प्रावधान	3,22,992	4,10,169	4,25,634
17 कराधान (आयकर अग्रिम को घटाकर)	57,990	67,994	54,178
18 लाभांश	83,232	1,55,957	1,64,399
19 अन्य चालू प्रावधान	1,54,280	1,59,928	1,73,221
20 चालू प्रावधान से इतर	27,491	26,290	33,836
च. 21 विविध गैर-चालू देयताएं	55	91	72
22 कुल	74,83,345	85,15,209	99,23,673

@ : निजी तौर पर स्थानित डिबेंचर शामिल हैं।

**विवरण 4: चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों संयुक्त तुलनपत्र
2008-09 से 2010-11 (समाप्त)**

(₹ मिलियन)

आस्तियां	2008-09	2009-10	2010-11
	1	2	3
छ. सकल अचल आस्तियां	41,89,356	47,74,338	53,80,458
23 भूमि	1,85,020	2,18,426	2,33,830
24 भवन	3,86,627	4,55,424	5,38,079
25 संयंत्र और मशीनरी	27,94,552	31,56,881	35,56,529
26 चालू पूंजीगत कार्य	5,17,382	5,87,074	6,98,185
27 फर्नीचर, फिक्सचर और कार्यालय उपकरण	1,42,054	1,56,113	1,65,544
28 अन्य	1,63,721	2,00,419	1,88,290
ज. 29 मूल्यहास	12,67,787	14,96,409	17,53,056
झ. 30 निवल अचल आस्तियां	29,21,569	32,77,929	36,27,401
ञ. इंवेटरियां	7,88,490	8,47,614	11,03,734
31 कच्चा माल, घटक आदि	2,66,303	2,76,515	3,56,136
32 तैयार माल	2,22,007	2,32,389	3,11,015
33 चालू कार्य	1,41,616	1,69,408	2,39,237
34 भंडार और पूर्जे	81,572	82,325	1,05,817
35 अन्य	76,992	86,976	91,529
ट. ऋण तथा अग्रिम और अन्य देनदारी शेष	16,89,604	19,00,154	22,56,358
36 विविध देनदार	8,84,394	9,69,052	11,07,479
37 ऋण और अग्रिम	5,89,774	6,72,979	8,16,383
(क) उसी प्रबंधन के तहत अनुषंगियों और कंपनियों को	2,13,414	2,84,434	3,47,326
(ख) अन्य को	3,76,360	3,88,545	4,69,057
38 ऋण और अग्रिम पर उपचित ब्याज	26,168	28,541	39,097
39 सरकार/अन्य के पास जमा/शेष राशि	1,33,058	1,49,291	1,69,312
40 अन्य	56,210	80,291	1,24,088
ठ. निवेश	12,74,242	16,61,087	18,33,352
जिसमें से: उद्धृत निवेश	2,92,723	3,44,350	3,77,377
41 विदेशी	62,355	61,629	71,257
42 भारतीय	12,11,887	15,99,459	17,62,095
(क) सरकारी और अर्ध-सरकारी प्रतिभूतियां	8,572	9,499	6,329
(ख) वित्तीय संस्थाओं की प्रतिभूतियां	3,21,752	5,05,925	4,79,690
(ग) औद्योगिक प्रतिभूतियां	1,00,105	1,17,512	1,36,264
(घ) अनुषंगियों के शेयर तथा डिबेंचर	7,27,596	8,62,797	10,21,321
(ड) अन्य	53,862	1,03,725	1,18,491
ड. 43 आय-कर अग्रिम (कर-प्रावधान को घटाकर)	-	-	-
ढ. अन्य आस्तियां	1,59,300	1,51,101	3,71,050
44 अचल संपत्ति	4,176	4,283	5,067
45 अमूर्त आस्तियां	1,54,716	1,46,709	3,65,905
46 चालू से इतर विविध आस्तियां	408	109	78
ण. नकदी और बैंक शेष	6,50,141	6,77,325	7,31,778
47 बैंकों से पास सावधि जमाराशि	5,13,287	5,05,668	5,65,470
48 अन्य बैंक शेषराशि	1,12,703	1,49,311	1,50,410
49 उपलब्ध नकदी	24,151	22,345	15,898
50 कुल (झ से ण)	74,83,345	85,15,209	99,23,673

- : शून्य या नगण्य

**विवरण 5: चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों की निधि का स्रोत और उपयोग,
2009-10 एवं 2010-11**

(₹ मिलियन)

निधियों के स्रोत	2009-10	2010-11
	1	2
आंतरिक स्रोत	7,10,011	6,22,860
क. 1 प्रदत्त पूंजी#	-3,223	12,422
ख. रिजर्व और अधिशेष	3,98,974	3,39,777
2 पूंजीगत रिजर्व	-36,436	-38,712
3 निवेश अनुमत रिजर्व	-617	-26
4 ऋण शोधन निधि	3,849	10,123
5 अन्य रिजर्व	4,32,178	3,68,392
ग. प्रावधान	3,14,260	2,70,661
6 मूल्यहास	2,27,083	2,55,195
7 कराधान (आयकर अग्रिम को घटाकर)	10,004	-13,815
8 लाभांश	72,725	8,442
9 अन्य चालू प्रावधान	5,649	13,343
10 चालू से इतर प्रावधान	-1,201	7,496
बाह्य स्रोत	5,46,433	10,39,875
घ. प्रदत्त पूंजी	2,04,760	2,38,719
11 निवल निर्गम	31,384	44,559
12 शेयरों पर प्रीमियम	1,73,375	1,94,160
ङ. 13 पूंजीगत प्रप्तियां	29,814	3,020
च. उधारियां	1,52,191	3,78,861
14 डिबेंचर	53,398	28,600
15 ऋण और अग्रिम	1,11,716	3,58,413
(क) बैंकों से	78,145	3,05,454
(ब) अन्य भारतीय वित्तीय संस्थाओं से	12,002	17,340
(ग) विदेशी संस्थागत एजेंसियों से	-17,581	35,320
(घ) सरकारी और अर्ध-सरकारी निकायों से	-2,641	-3,720
(ङ) कंपनियों से	18,766	12,847
(च) अन्य से	23,025	-8,829
16 अस्थगित भुगतान	-17,618	-12,904
17 सार्वजनिक जमाराशि	8,757	4,754
छ. व्यापार देनदारियां और अन्य चालू देयताएं	1,59,632	4,19,293
18 विविध लेनदार	1,34,138	2,09,145
19 स्वीकृतियां	-17,283	47,486
20 कंपनियों के प्रति देयताएं	265	7,313
21 ग्राहकों, एजेंटों आदि से अग्रिम जमाराशि	25,104	91,263
22 ऋण पर उपचित ब्याज	-3,462	1,642
23 अन्य	20,871	62,444
ज. 24 विविध चालू से इतर देयताएं	36	-19
25 कुल	12,56,444	16,62,735

#: पूंजीगत रिजर्व एवं जब्त शेयर, कंपनियों के समामेलन के कारण चुकता पूंजी के मूल्य में कमी किये जाने से हुए परिवर्तनों को भी यहां शामिल किया गया है।

टिप्पणी: यह विवरण 4 पर आधारित है।

आवश्यकतानुसार, पुनर्मूल्यन आदि के लिए आंकड़ों को समायोजित किया गया है।

**विवरण 5: चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों की निधि का स्रोत और उपयोग,
2009-10 एवं 2010-11 (समाप्त)**

(₹ मिलियन)

निधियों के स्रोत	2009-10	2010-11
	1	2
झ. सकल अचल आस्तियां	5,79,018	6,03,743
26 भूमि	29,546	14,204
27 भवन	66,851	81,503
28 संयंत्र और मशीनरी	3,62,194	3,99,622
29 चालू पूंजीगत कार्य	69,687	1,11,112
30 फर्नीचर, फिक्सचर और कार्यालय उपकरण	14,047	9,431
31 अन्य	36,693	-12,129
ज. इंटेलिजेंस	59,124	2,56,145
32 कच्चा माल, घटक आदि	10,213	79,621
33 तैयार माल	10,382	78,626
34 चालू कार्य	27,792	69,829
35 भंडार और पूर्ण	753	23,492
36 अन्य	9,984	4,577
ट. ऋण तथा अग्रिम और देनदारी शेष	2,11,337	3,55,113
37 विविध देनदार	84,855	1,38,410
38 ऋण और अग्रिम	83,795	1,42,329
क) उसी प्रबंधन के तहत अनुषंगियों और कंपनियों को	71,623	62,892
ख) अन्य	12,171	79,437
39 ऋण और अग्रिम पर उपचित ब्याज	2,373	10,555
40 सरकार/अन्य के पास जमा/शेष राशि	16,233	20,021
41 अन्य	24,081	43,797
ठ. 42 निवेश	3,88,364	1,72,340
ड. 43 अन्य आस्तियां	-8,582	2,19,936
ढ. 44 नकदी और बैंक शेष	27,184	55,437
45 कुल	12,56,444	16,62,714

**विवरण 6: चुनिंदा 745 विदेशी निवेश वाली कंपनियों के विदेशी मुद्रा में आय/व्यय
2008-09 से 2010-11**

(₹ मिलियन)

मद	2008-09	2009-10	2010-11
	1	2	3
I. विदेशी मुद्रा में व्यय	15,37,951	15,53,890	18,23,335
(क) आयात (लागत, बीमा व भाड़ा आधार पर)	11,64,934	11,72,446	13,58,665
जिसमें से: i) कच्चा माल	7,27,144	7,76,263	9,03,694
ii) पूंजीगत माल	2,36,729	2,34,327	1,73,234
iii) भंडार और पुर्जे	74,520	42,470	74,539
(ख) विदेशी मुद्रा में अन्य व्यय	3,73,017	3,81,443	4,64,670
जिसमें से: लाभांश	43998	55778	115980
II. विदेशी मुद्रा में अर्जन	12,59,748	12,51,724	13,79,704
जिसमें से: निर्यात (जहाज पर्यंत निःशुल्क आधार पर)	7,83,861	7,90,228	9,19,401
III. विदेशी मुद्रा में निवल अंतर्वाह (+)/ बहिर्वाह (-)	-2,78,203	-3,02,166	-4,43,631

**विवरण 7: चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों की चुनिंदा मदों की वृद्धि दरें- उद्योगवार,
2009-10 एवं 2010-11**

(प्रतिशत)

मद	विनिर्माण (465)		सेवाएं (223)		कंप्यूटर और संबद्ध गतिविधियां (81)	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
	1	2	3	4	5	6
1 बिक्री +	14.2	16.8	7.2	16.3	10.1	9.4
2 उत्पादन मूल्य	13.4	18.8	7.4	17.5	10.3	9.4
3 कुल आय	13.5	18.7	7.5	12.9	9.5	9.4
4 विनिर्माण व्यय	11.0	22.8	2.8	23.2	7.5	-4.9
5 कर्मचारी पारिश्रमिक	12.7	18.6	10.3	17.3	12.7	18.4
6 ईबीआईटीडीए	40.9	4.2	40.5	5.9	28.4	7.5
7 मूल्यहास प्रावधान	16.5	14.3	16.2	12.8	-0.8	3.1
8 ईबीआईटी	41.7	4.6	41.8	-14.1	22.7	14.5
9 ब्याज	0.3	3.9	15.6	7.8	118.9	12.6
10 परिचालनेतर अधिशेष / घाटे के पूर्व ईबीटी	49.7	4.7	52.4	-20.8	18.6	14.6
11 परिचालनेतर अधिशेष / घाटा	24.4	10.2	-19.7	-58.7	101.3	-49.0
12 कर पूर्व लाभ	48.8	4.8	35.1	-26.2	23.4	8.6
13 कर प्रावधान	44.9	1.9	15.4	-4.7	28.0	10.7
14 निवल लाभ	50.7	6.2	40.8	-31.3	22.4	8.1
15 प्रदत्त लाभांश	63.9	10.4	7.7	36.0	-2.2	59.5
16 प्रतिधारित लाभ	43.6	3.3	48.2	-42.2	29.9	-3.6
17 सकल लाभ	32.2	7.4	31.0	-16.1	20.8	-1.9
18 (क) सकल योजित मूल्य	31.3	9.1	21.1	5.2	14.0	15.5
(ख) निवल योजित मूल्य	34.1	8.2	22.7	3.0	15.3	16.4
19 निवल मालियत @	19.2	16.1	13.8	8.4	14.7	15.8
20 कुल उधार @	6.6	14.6	2.2	24.2	47.5	21.0
जिसमें से बैंकों से @	9.7	17.7	3.9	40.8	40.8	18.8
21 व्यापार देनदारियां और अन्य चालू देयताएं@	8.3	22.5	9.8	14.1	20.8	-3.8
22 (क) सकल अचल आस्तियां @	12.6	12.2	16.2	13.6	11.7	11.0
(ख) निवल अचल आस्तियां @	13.1	10.9	10.2	10.3	4.5	4.5
23 इन्वेंटरी @	3.7	32.1	17.0	38.8	37.8	59.8
24 (क) सकल भौतिक आस्तियां @	10.9	15.8	16.2	14.8	12.3	12.3
(ख) निवल भौतिक आस्तियां @	10.6	16.1	10.6	12.1	5.7	7.1
25 (क) कुल सकल आस्तियां @	14.0	16.3	12.3	15.1	19.4	13.5
(ख) कुल निवल आस्तियां @	14.4	16.6	9.4	14.1	19.0	12.8
26 विदेशी मुद्रा में कुल आय	-2.4	14.3	1.2	6.6	7.6	4.1
जिसमें से: निर्यात	-1.5	14.7	56.2	13.6	80.2	17.1
27 विदेशी मुद्रा में कुल व्यय	0.4	27.0	-2.8	4.8	0.0	-5.9
जिसमें से: आयात	-1.1	20.8	1.5	2.4	4.3	-17.7

+ 'छूट और बट्टा' तथा 'उत्पाद शुल्क और उपकर' घटाकर।

@ पुनर्मूल्यन आदि के लिए समायोजित।

अंश अथवा हर ऋणात्मक अथवा शून्य अथवा नगण्य हैं।

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों के आंकड़े कंपनियों की संख्या दर्शाते हैं।

2. सभी मदों की वृद्धि दरों को कंपनियों के सम्मेलन के कारण होने वाले परिवर्तन के लिए समायोजित किया गया है।

**विवरण 7: चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों की चुनिंदा मदों की वृद्धि दरें- उद्योगवार,
2009-10 एवं 2010-11 (जारी)**

(प्रतिशत)

मद	खाद्य उत्पाद तथा पेय पदार्थ (34)		रसायन तथा रासायनिक उत्पाद (78)		रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद (29)	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
	7	8	9	10	11	12
1 बिक्री +	16.0	22.1	7.6	17.5	14.8	41.6
2 उत्पादन मूल्य	17.2	21.5	6.7	18.6	14.2	43.4
3 कुल आय	17.6	20.9	5.9	19.0	16.1	40.9
4 विनिर्माण व्यय	16.3	26.0	1.8	21.5	13.3	38.5
5 कर्मचारी पारिश्रमिक	17.3	11.6	17.0	16.4	18.5	31.2
6 ईबीआईटीडीए	16.2	6.3	51.5	11.5	42.3	81.4
7 मूल्यहास प्रावधान	22.2	3.6	15.1	23.9	17.7	17.6
8 ईबीआईटी	11.7	8.5	54.2	16.2	51.6	75.9
9 ब्याज	14.9	8.3	-23.5	11.8	17.5	32.3
10 परिचालनेतर अधिशेष / घाटे के पूर्व ईबीटी	10.9	8.6	63.1	16.4	65.0	88.1
11 परिचालनेतर अधिशेष / घाटा	#	-45.5	-67.0	-30.5	290.2	-78.6
12 कर पूर्व लाभ	20.8	4.7	39.2	14.4	85.2	78.3
13 कर प्रावधान	5.4	6.1	21.8	8.7	45.8	127.4
14 निवल लाभ	29.2	4.2	47.3	16.5	102.9	62.5
15 प्रदत्त लाभांश	5.4	17.6	8.6	32.2	96.6	-7.7
16 प्रतिधारित लाभ	47.9	-3.4	89.9	6.8	105.1	79.0
17 सकल लाभ	38.7	-1.2	64.2	11.0	58.4	54.6
18 (क) सकल योजित मूल्य	17.2	8.3	41.0	15.8	30.7	64.0
(ख) निवल योजित मूल्य	16.7	8.9	44.3	15.0	34.6	76.3
19 निवल मालियत @	25.1	7.1	19.8	14.1	9.2	15.8
20 कुल उधार @	26.1	-11.1	-6.4	30.3	50.3	9.5
जिसमें से बैंकों से @	40.3	-5.2	-9.1	31.6	23.0	14.9
21 व्यापार देनदारियां और अन्य चालू देयताएं@	27.9	15.8	1.4	15.6	16.2	23.7
22 (क) सकल अचल आस्तियां @	13.4	-1.5	16.8	12.9	14.4	10.4
(ख) निवल अचल आस्तियां @	12.6	-4.4	17.1	12.3	16.3	9.8
23 इन्वेंटरी @	30.8	18.1	6.5	29.6	36.7	42.3
24 (क) सकल भौतिक आस्तियां @	17.9	4.2	13.7	17.6	16.6	14.1
(ख) निवल भौतिक आस्तियां @	18.7	3.9	13.0	18.7	19.3	15.3
25 (क) कुल सकल आस्तियां @	24.2	3.3	9.8	16.5	17.9	13.9
(ख) कुल निवल आस्तियां @	25.4	3.1	9.0	16.8	19.7	14.5
26 विदेशी मुद्रा में कुल आय	5.6	66.6	2.7	19.4	10.4	100.1
जिसमें से: निर्यात	8.4	68.1	2.5	18.3	3.5	115.3
27 विदेशी मुद्रा में कुल व्यय	22.5	-7.8	-11.6	22.4	25.9	47.5
जिसमें से: आयात	23.6	-11.5	-13.5	29.6	28.0	43.9

**विवरण 7: चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों की चुनिंदा मदों की वृद्धि दरें- उद्योगवार,
2009-10 एवं 2010-11 (जारी)**

(प्रतिशत)

Item	मोटर वाहन तथा अन्य परिवहन उपस्कर (52)		मशीनरी तथा मशीनी औजार (66)		विद्युत मशीनरी तथा उपकरण (32)	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
	13	14	15	16	17	18
1 बिक्री +	28.4	22.9	2.6	23.0	7.2	10.2
2 उत्पादन मूल्य	28.7	23.6	3.4	24.4	8.1	11.7
3 कुल आय	28.1	23.2	2.8	24.3	8.6	11.6
4 विनिर्माण व्यय	25.7	25.4	-0.2	27.8	5.8	16.8
5 कर्मचारी पारिश्रमिक	15.9	28.2	6.6	18.7	12.0	22.3
6 ईबीआईटीडीए	76.2	11.5	25.6	10.1	19.5	-13.0
7 मूल्यहास प्रावधान	17.3	19.8	0.9	-1.2	22.1	17.4
8 ईबीआईटी	81.8	12.1	26.1	16.0	19.6	-13.9
9 ब्याज	-8.3	-5.5	-13.8	1.7	-22.2	-3.6
10 परिचालनेतर अधिशेष / घाटे के पूर्व ईबीटी	97.3	13.5	32.6	17.5	24.2	-14.6
11 परिचालनेतर अधिशेष / घाटा	-15.9	-86.7	-44.4	50.0	#	-12.4
12 कर पूर्व लाभ	87.7	9.7	24.8	18.9	26.8	-14.5
13 कर प्रावधान	104.7	1.5	13.7	20.9	16.3	-16.7
14 निवल लाभ	80.8	13.5	32.2	17.8	32.3	-13.5
15 प्रदत्त लाभांश	172.0	4.5	29.6	-7.2	27.0	35.0
16 प्रतिधारित लाभ	45.4	20.1	33.5	30.5	33.4	-21.9
17 सकल लाभ	32.1	20.0	17.0	16.7	31.0	-14.3
18 (क) सकल योजित मूल्य	50.8	17.0	15.8	14.0	18.2	-1.1
(ख) निवल योजित मूल्य	60.1	16.4	19.0	16.7	17.9	-2.8
19 निवल मालियत @	19.2	18.9	15.3	12.6	26.8	14.1
20 कुल उधार @	-10.9	6.9	-13.3	9.7	-13.8	18.4
जिसमें से बैंकों से @	-2.3	-11.7	-11.0	9.8	-10.4	28.3
21 व्यापार देनदारियां और अन्य चालू देयताएं@	12.7	23.8	17.2	31.6	10.3	17.2
22 (क) सकल अचल आस्तियां @	10.9	12.1	3.3	9.8	9.7	13.0
(ख) निवल अचल आस्तियां @	7.1	8.8	-5.1	7.8	10.4	14.1
23 इन्वेंटरी @	2.7	25.9	4.9	35.4	14.8	26.6
24 (क) सकल भौतिक आस्तियां @	9.6	14.2	3.7	16.0	11.0	16.7
(ख) निवल भौतिक आस्तियां @	6.1	12.7	-1.4	18.9	12.0	18.8
25 (क) कुल सकल आस्तियां @	14.3	16.5	11.8	17.3	13.6	14.7
(ख) कुल निवल आस्तियां @	13.6	16.4	11.6	18.8	14.4	15.2
26 विदेशी मुद्रा में कुल आय	13.8	-9.3	-23.5	23.4	8.2	-2.1
जिसमें से: निर्यात	15.7	-9.7	-19.0	25.2	6.6	-2.0
27 विदेशी मुद्रा में कुल व्यय	-1.1	43.8	-9.8	28.4	3.3	64.0
जिसमें से: आयात	-6.1	32.1	-8.9	28.1	0.4	5.0

**विवरण 7: चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों की चुनिंदा मदों की वृद्धि दरें- उद्योगवार,
2009-10 एवं 2010-11 (समाप्त)**

(प्रतिशत)

मद	निर्माण		शोक तथा खुदरा व्यापार		परिवहन, भंडारण और संचार	
	(22)		(25)		(25)	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
	19	20	21	22	23	24
1 बिक्री +	18.2	-3.9	6.0	21.8	5.7	14.6
2 उत्पादन मूल्य	16.1	-2.3	6.9	27.8	5.7	14.5
3 कुल आय	17.1	-1.1	8.8	18.4	5.7	9.3
4 विनिर्माण व्यय	17.2	-1.9	5.3	24.7	3.2	25.0
5 कर्मचारी पारिश्रमिक	7.9	14.0	3.8	7.6	6.0	12.0
6 ईबीआईटीडीए	9.3	-19.2	35.4	79.8	21.9	-3.3
7 मूल्यहास प्रावधान	16.5	20.4	9.6	-10.0	19.2	13.2
8 ईबीआईटी	13.5	-9.1	86.0	-51.8	36.2	-33.7
9 ब्याज	33.9	33.5	-11.3	-0.3	6.9	5.6
10 परिचालनेतर अधिशेष / घाटे के पूर्व ईबीटी	3.5	-36.0	100.4	-55.2	58.7	-54.1
11 परिचालनेतर अधिशेष / घाटा	#	-15.6	113.2	#	-37.1	-77.9
12 कर पूर्व लाभ	13.7	-34.1	119.4	-51.8	20.7	-59.0
13 कर प्रावधान	15.5	-21.6	83.6	-49.7	-0.9	-32.2
14 निवल लाभ	12.9	-39.7	145.9	-53.1	24.4	-62.6
15 प्रदत्त लाभांश	-3.3	32.8	19.9	2.4	-9.3	9.3
16 प्रतिधारित लाभ	13.7	-42.9	171.8	-58.1	27.4	-67.2
17 सकल लाभ	14.6	-23.0	130.7	-52.3	22.6	-21.9
18 (क) सकल योजित मूल्य	10.7	-3.2	43.4	-31.1	21.4	-4.2
(ख) निवल योजित मूल्य	10.0	-5.9	45.6	-32.2	22.8	-14.9
19 निवल मालियत @	25.3	6.7	27.5	9.9	10.1	3.9
20 कुल उधार @	32.3	20.2	47.9	0.7	-4.1	26.7
जिसमें से बैंकों से @	7.5	24.6	74.9	14.4	-2.2	51.1
21 व्यापार देनदारियां और अन्य चालू देयताएं@	21.2	46.8	8.9	19.2	10.1	18.8
22 (क) सकल अचल आस्तियां @	17.3	13.6	5.8	9.7	16.9	13.1
(ख) निवल अचल आस्तियां @	14.0	9.4	6.6	10.6	10.5	9.5
23 इन्वेंटरी @	26.9	17.4	2.1	22.4	0.0	11.7
24 (क) सकल भौतिक आस्तियां @	22.7	15.8	3.3	18.4	16.7	13.1
(ख) निवल भौतिक आस्तियां @	22.0	14.5	3.1	19.7	10.4	9.5
25 (क) कुल सकल आस्तियां @	25.8	25.9	17.7	12.6	8.9	15.8
(ख) कुल निवल आस्तियां @	25.6	25.8	18.3	12.8	4.4	14.5
26 विदेशी मुद्रा में कुल आय	18.2	-59.7	12.6	9.7	-7.6	19.9
जिसमें से: निर्यात	69.2	-53.2	32.9	1.4	#	67.2
27 विदेशी मुद्रा में कुल व्यय	12.9	-54.6	6.5	35.5	-7.0	-20.7
जिसमें से: आयात	12.9	-43.4	6.3	36.5	-4.7	-45.1

**विवरण 8: चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों की चुनिंदा मदों की वृद्धि दरें- देशवार,
2009-10 एवं 2010-11**

(प्रतिशत)

मद	फ्रांस (16)		जर्मनी (61)		यूएसए (114)		यूके (66)	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 बिक्री +	23.1	18.8	6.9	14.9	4.1	2.5	17.0	16.7
2 उत्पादन मूल्य	21.7	20.0	6.3	18.6	2.2	3.6	15.3	18.0
3 कुल आय	21.1	19.9	6.8	14.4	2.6	4.0	15.5	17.5
4 विनिर्माण व्यय	27.3	21.1	4.6	16.9	-3.5	8.5	14.6	19.2
5 कर्मचारी पारिश्रमिक	31.6	23.6	17.5	16.6	6.0	15.7	12.2	14.2
6 ईबीआईटीडीए	-3.7	10.8	77.1	#	27.0	-12.6	20.9	19.0
7 मूल्यहास प्रावधान	29.5	23.8	14.9	6.5	6.9	-0.3	16.3	18.2
8 ईबीआईटी	-6.9	6.2	18.3	14.6	23.8	-9.8	19.8	19.1
9 ब्याज	82.2	16.4	14.3	12.1	21.7	-5.9	5.3	4.0
10 परिचालनेतर अधिशेष / घाटे के पूर्व ईबीटी	-13.7	4.5	19.0	15.1	24.1	-10.2	21.0	20.2
11 परिचालनेतर अधिशेष / घाटा	-361.4	23.7	53.7	-31.0	#	2.0	58.7	-34.3
12 कर पूर्व लाभ	-18.1	5.7	23.2	8.2	28.5	-9.7	22.5	17.4
13 कर प्रावधान	-28.2	6.3	1.8	20.9	27.4	3.4	35.7	8.5
14 निवल लाभ	-12.9	5.4	35.2	2.9	28.9	-14.6	16.7	22.0
15 प्रदत्त लाभांश	-3.7	31.0	35.8	46.9	21.2	50.3	63.5	3.1
16 प्रतिधारित लाभ	-15.9	1.2	35.1	-5.4	31.5	-35.3	-18.5	50.6
17 सकल लाभ	-5.1	8.6	28.2	-1.8	24.5	-26.7	-9.6	39.9
18 (क) सकल योजित मूल्य	4.5	11.8	13.0	15.1	16.9	-0.5	18.2	17.0
(ख) निवल योजित मूल्य	1.1	9.7	12.7	16.4	18.2	-0.5	18.4	16.9
19 निवल मालियत @	20.1	14.6	23.1	13.6	8.1	10.7	19.7	16.1
20 कुल उधार @	24.6	21.8	8.0	7.0	-24.3	7.8	16.9	11.0
जिसमें से बैंकों से @	27.9	10.7	-6.3	6.4	-26.7	11.8	-19.1	-0.4
21 व्यापार देनदारियां और अन्य चालू देयताएं@	15.1	27.5	-0.5	28.7	0.2	23.8	31.5	14.1
22 (क) सकल अचल आस्तियां @	24.8	17.3	9.6	12.7	-25.1	7.0	12.8	11.1
(ख) निवल अचल आस्तियां @	25.6	16.1	3.9	11.1	-29.7	4.7	12.8	9.2
23 इन्वेंटरी @	-20.7	21.4	14.6	24.2	1.9	24.8	3.0	24.1
24 (क) सकल भौतिक आस्तियां @	18.5	17.7	11.3	16.6	-17.8	12.9	10.6	13.7
(ख) निवल भौतिक आस्तियां @	17.8	16.7	8.7	17.2	-18.3	13.7	10.0	13.2
25 (क) कुल सकल आस्तियां @	19.9	20.0	14.3	16.0	-4.0	12.2	23.0	14.0
(ख) कुल निवल आस्तियां @	19.6	19.7	13.5	16.1	-1.7	12.4	24.8	13.8
26 विदेशी मुद्रा में कुल आय	-11.5	19.5	-8.1	-32.5	-13.1	11.4	5.1	17.9
जिसमें से: निर्यात	-16.2	31.2	-14.9	0.7	3.4	6.9	1.2	34.5
27 विदेशी मुद्रा में कुल व्यय	21.1	22.1	0.0	4.0	6.1	11.8	13.6	10.1
जिसमें से: आयात	21.1	22.5	1.6	34.0	-5.4	14.3	13.0	8.3

+ 'छूट और बढ़ा' तथा 'उत्पाद शुल्क और उपकर' घटाकर।

@ पुनर्मूल्यन आदि के लिए समायोजित।

अंश अथवा हर ऋणात्मक अथवा शून्य अथवा नगण्य हैं।

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों के आंकड़े कंपनियों की संख्या दर्शाते हैं।

2. सभी मदों की वृद्धि दरों को कंपनियों के समामेलन के कारण होने वाले परिवर्तन के लिए समायोजित किया गया है।

**विवरण 8: चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों की चुनिंदा मदों की वृद्धि दरें- देशवार,
2009-10 एवं 2010-11 (समाप्त)**

(प्रतिशत)

मद	स्विटजरलैंड (25)		नीदरलैंड (31)		जापान (52)		मॉरीशस (179)	
	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10	2008-09	2009-10
	9	10	11	12	13	14	15	16
1 बिक्री +	9.7	13.7	7.9	18.4	29.4	25.4	7.7	12.8
2 उत्पादन मूल्य	9.6	15.1	8.5	18.4	29.5	26.5	7.5	14.9
3 कुल आय	9.8	16.2	8.8	18.2	30.7	23.6	7.8	13.9
4 विनिर्माण व्यय	5.3	23.8	2.5	20.0	29.3	31.6	5.3	19.2
5 कर्मचारी पारिश्रमिक	14.5	18.7	11.8	22.5	19.4	30.3	8.4	16.8
6 ईबीआईटीडीए	24.5	-14.4	34.3	10.5	135.6	3.6	25.7	1.4
7 मूल्यहास प्रावधान	66.1	13.3	13.8	7.1	21.5	22.9	14.5	14.1
8 ईबीआईटी	13.4	-15.7	33.0	14.9	277.9	-8.3	29.8	-8.6
9 ब्याज	32.8	-8.4	-24.7	-14.7	-0.5	-8.0	5.7	11.3
10 परिचालनेतर अधिशेष / घाटे के पूर्व ईबीटी	12.0	-16.3	36.3	15.8	#	-8.3	36.6	-13.0
11 परिचालनेतर अधिशेष / घाटा	406.3	362.3	65.0	-32.6	-0.1	-118.4	-82.3	#
12 कर पूर्व लाभ	13.9	-11.7	37.8	12.9	429.3	-22.2	32.0	-9.6
13 कर प्रावधान	5.1	-15.5	29.2	6.5	100.6	-6.0	28.3	-9.8
14 निवल लाभ	18.3	-10.0	42.9	16.3	#	-30.0	33.0	-9.6
15 प्रदत्त लाभांश	15.3	10.0	13.4	10.0	294.7	5.8	9.8	3.1
16 प्रतिधारित लाभ	19.8	-19.7	55.2	18.2	#	-58.1	37.2	-11.8
17 सकल लाभ	35.1	-6.3	41.2	15.2	138.5	-11.4	27.5	-1.8
18 (क) सकल योजित मूल्य	21.5	-1.9	23.1	15.6	89.9	8.7	21.4	2.4
(ख) निवल योजित मूल्य	14.9	-5.1	24.2	16.4	137.2	3.7	23.3	-0.6
19 निवल मालियत @	28.0	11.0	16.0	18.8	8.2	19.6	25.0	16.6
20 कुल उधार @	35.4	5.2	-27.0	24.6	-0.4	24.2	17.3	22.6
जिसमें से बैंकों से @	30.9	-0.8	-31.4	40.7	-8.6	27.2	22.3	31.8
21 व्यापार देनदारियां और अन्य चालू देयताएं@	6.6	22.1	6.8	19.4	11.1	24.9	7.6	25.3
22 (क) सकल अचल आस्तियां @	25.5	20.7	5.8	10.1	16.1	14.1	22.0	14.7
(ख) निवल अचल आस्तियां @	26.8	21.5	1.5	9.3	13.8	11.1	21.3	13.1
23 इन्वेंटरी @	19.3	19.6	18.8	24.6	16.9	40.4	6.9	36.3
24 (क) सकल भौतिक आस्तियां @	24.3	20.5	9.2	14.3	16.2	16.6	20.3	16.7
(ख) निवल भौतिक आस्तियां @	24.7	21.0	8.5	16.1	14.2	15.0	19.2	16.1
25 (क) कुल सकल आस्तियां @	21.3	14.6	9.6	17.8	10.7	21.9	19.4	19.2
(ख) कुल निवल आस्तियां @	20.8	13.4	9.4	19.0	8.6	22.2	18.6	19.3
26 विदेशी मुद्रा में कुल आय	14.7	25.0	-30.9	30.9	17.7	3.7	-4.4	12.5
जिसमें से: निर्यात	9.4	15.7	-29.3	33.5	16.4	3.5	-10.3	20.0
27 विदेशी मुद्रा में कुल व्यय	6.2	23.9	4.3	13.4	16.6	18.0	-4.1	23.1
जिसमें से: आयात	4.5	25.6	3.6	18.5	18.6	4.0	-5.3	15.7

**विवरण 9: चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों की चुनिंदा मदों की वृद्धि दरें- देशवार,
2009-10 एवं 2010-11**

(प्रतिशत)

मद	सार्वजनिक (493)		निजी (252)	
	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11
	1	2	3	4
1 बिक्री +	12.7	15.4	6.1	29.4
2 उत्पादन मूल्य	12.1	16.9	5.7	34.5
3 कुल आय	12.1	16.1	6.8	28.5
4 विनिर्माण व्यय	10.0	20.5	-1.2	41.8
5 कर्मचारी पारिश्रमिक	11.2	17.2	12.7	23.9
6 ईबीआईटीडीए	36.9	5.0	55.0	22.0
7 मूल्यहास प्रावधान	16.9	13.9	18.2	12.2
8 ईबीआईटी	37.7	2.3	46.0	-16.8
9 ब्याज	9.2	6.9	17.1	5.2
10 परिचालनेतर अधिशेष / घाटे के पूर्व ईबीटी	44.6	1.4	52.8	-20.7
11 परिचालनेतर अधिशेष / घाटा	-14.6	-28.0	88.4	141.8
12 कर पूर्व लाभ	39.7	-0.1	53.8	-15.3
13 कर प्रावधान	34.6	3.4	42.1	-15.8
14 निवल लाभ	41.8	-1.4	60.4	-15.0
15 प्रदत्त लाभांश	52.5	15.3	43.4	-28.5
16 प्रतिधारित लाभ	37.6	-8.9	67.1	-10.5
17 सकल लाभ	28.5	0.3	42.0	-0.8
18 (क) सकल योजित मूल्य	26.3	8.3	24.6	5.7
(ख) निवल योजित मूल्य	28.4	7.1	25.6	4.7
19 निवल मालियत @	18.2	14.5	21.3	15.9
20 कुल उधार @	7.7	17.5	0.9	10.9
जिसमें से बैंकों से @	7.1	24.7	-4.3	15.7
21 व्यापार देनदारियां और अन्य चालू देयताएं@	9.3	21.6	14.0	45.2
22 (क) सकल अचल आस्तियां @	13.7	12.7	15.7	11.4
(ख) निवल अचल आस्तियां @	12.0	10.8	12.7	7.0
23 इन्वेंटरी @	7.7	29.4	4.2	43.4
24 (क) सकल भौतिक आस्तियां @	12.8	15.2	13.1	17.9
(ख) निवल भौतिक आस्तियां @	11.1	14.6	10.4	16.5
25 (क) कुल सकल आस्तियां @	14.3	16.4	15.2	22.2
(ख) कुल निवल आस्तियां @	13.7	16.3	14.0	22.0
26 विदेशी मुद्रा में कुल आय	0.1	8.0	-16.1	66.2
जिसमें से: निर्यात	2.7	14.6	-36.5	73.3
27 विदेशी मुद्रा में कुल व्यय	1.9	14.9	-12.9	64.8
जिसमें से: आयात	1.6	12.7	-12.5	65.4

+ 'छूट और बढ़ा' तथा 'उत्पाद शुल्क और उपकर' घटाकर।

@ पुनर्मूल्यन आदि के लिए समायोजित।

टिप्पणी: सभी मदों की वृद्धि दरों को कंपनियों के सम्मेलन के कारण होने वाले परिवर्तन के लिए समायोजित किया गया है।

**विवरण 10: चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों की चुनिंदा मदों का चुनिंदा वित्तीय अनुपात - उद्योगवार,
2008-09 से 2010-11**

(प्रतिशत)

मद	विनिर्माण (465)			सेवाएं (223)		
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
	1	2	3	4	5	6
क. पूंजीगत संरचना अनुपात						
1 कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल अचल आस्तियां	40.6	40.1	38.2	39.6	39.9	38.6
2 कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल मालियात	45.7	47.5	47.3	46.6	48.5	46.0
3 इक्विटी की तुलना में ऋण	35.0	33.4	31.5	45.2	43.2	40.2
4 इक्विटी की तुलना में ऋण (पुनर्मूल्यन रिजर्व बैंक के लिए समायोजित इक्विटी)	36.3	34.3	32.2	46.2	44.0	40.8
5 इवेंटरियों की तुलना में अल्पकालिक बैंक उधार	53.4	47.8	48.3	257.0	187.6	288.3
6 निवल मालियत की तुलना में कुल बाह्य देयताएं	118.7	110.4	111.3	114.6	106.4	117.2
ख. चलनिधि अनुपात						
7 चालू देयताओं की तुलना में चालू आस्तियां **	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.0
8 चालू देयताओं की तुलना में त्वरित आस्तियां	63.4	66.2	65.1	81.4	72.1	52.2
9 कुल निवल आस्तियों की तुलना में चालू आस्तियां	48.4	47.1	49.5	39.4	37.3	35.5
10 चालू आस्तियों की तुलना में विविध लेनदार	30.2	31.1	30.4	28.1	30.0	32.0
11 निवल कार्यशील पूंजी की तुलना में विविध लेनदार	137.9	133.9	124.1	151.6	163.2	3722.0
ग. आस्ति उपयोग और पण्यवर्त अनुपात						
12 कुल निवल आस्तियां की तुलना में बिक्री		98.2	99.1		54.7	56.9
13 सकल अचल आस्तियों की तुलना में बिक्री		164.6	170.8		99.0	100.3
14 बिक्री की तुलना में इवेंटरी	15.5	14.1	16.0	4.7	5.1	6.1
15 बिक्री की तुलना में विविध लेनदार	13.4	13.0	12.8	19.5	18.7	18.3
16 बिक्री की तुलना में निर्यात	18.1	15.6	15.4	2.1	3.0	3.0
17 सकल अचल आस्तियों की तुलना में सकल योजित मूल्य		38.3	37.1		38.9	35.7
18 उत्पादन मूल्य की तुलना में खपाए गए कच्चे माल	56.4	56.0	58.4	18.0	16.8	18.3
घ. निधियों के स्रोत और उपयोग के अनुपात@						
19 निधियों की कुल उपयोग की तुलना में सकल अचल आस्ति निर्माण		45.3	37.0		64.9	45.6
20 निधियों के कुल उपयोग की तुलना में सकल पूंजी निर्माण		48.5	58.4		68.1	51.7
21 निधियों के कुल स्रोत की तुलना में निधियों के बाह्य स्रोत		40.7	56.7		29.6	71.4
22 कुल बाह्य स्रोत की तुलना में बैंक उधार राशि में वृद्धि		21.2	22.9		15.6	50.1
23 सकल पूंजी निर्माण की तुलना में सकल बचत		116.3	77.9		117.0	92.7
ङ. निधियों के स्रोत और उपयोग के अनुपात@						
24 कुल निवल आस्तियों की तुलना में ईबीआईटी	10.9	13.5	12.1	6.3	8.2	6.2
25 बिक्री की तुलना में ईबीआईटी	11.8	14.7	13.1	11.9	15.7	11.6
26 निवल मालियत की तुलना में निवल लाभ	14.0	17.7	16.2	9.9	12.2	7.7
27 बिक्री की तुलना में ईबीआईटीडीए	12.2	15.0	13.4	12.2	16.0	14.5
28 कर पूर्व लाभों की तुलना में कर प्रावधान*	31.3	31.0	30.1	17.0	15.8	16.9
29 निवल लाभ की तुलना में प्रतिधारित लाभ*	66.6	62.8	61.3	87.1	89.0	83.1
30 निवल मालियत की तुलना में लाभांश	4.9	6.8	6.4	1.8	1.7	2.1
31 साधारण प्रदत्त पूंजी की तुलना में सामान्य लाभांश	54.3	78.6	79.5	9.8	10.3	13.1

*: उन कंपनियों के आधार पर की गई है जिन्हें वर्ष के दौरान लाभ हुआ।

**: मद ख.7 चालू देयताओं की तुलना में चालू आस्तियों का वास्तविक अनुपात है।

@: दो वर्ष के लिए उपलब्ध क्योंकि ये स्रोतों एवं निधियों के उपयोग पर आधारित है जिसमें दो लगातार वर्षों में अंतर है। इस अनुपात को पुनर्मूल्यन आदि के लिए समायोजित किया गया है।

#: अंश अथवा हर ऋणात्मक अथवा शून्य अथवा नगण्य हैं।

^: वर्ष के दौरान कुल औसत निवल आस्तियों और सकल अचल आस्तियों के आधार पर गणना की गई है। इसलिए, वर्ष 2008-09 के अनुपात उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े कंपनियों की संख्या दर्शाते हैं।

**विवरण 10: चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों की चुनिंदा मदों का चुनिंदा वित्तीय अनुपात - उद्योगवार,
2008-09 से 2010-11 (जारी)**

(प्रतिशत)

मद	कंप्यूटर और संबद्ध गतिविधियां (81)			खाद्य उत्पाद तथा पेय पदार्थ (34)		
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
	7	8	9	10	11	12
क. पूंजीगत संरचना अनुपात						
1 कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल अचल आस्तियां	16.8	14.7	13.6	31.6	28.4	26.3
2 कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल मालियात	66.4	64.0	65.7	45.6	44.3	46.0
3 इक्विटी की तुलना में ऋण	11.3	12.5	13.3	38.5	48.9	33.1
4 इक्विटी की तुलना में ऋण (पुनर्मूल्यन रिजर्व बैंक के लिए समायोजित इक्विटी)	11.3	12.5	13.3	39.6	50.0	33.7
5 इवेंटरियों की तुलना में अल्पकालिक बैंक उधार	419.9	451.5	373.9	62.3	50.4	60.1
6 निवल मालियात की तुलना में कुल बाह्य देयताएं	50.7	56.3	52.3	119.2	125.8	117.3
ख. चलनिधि अनुपात						
7 चालू देयताओं की तुलना में चालू आस्तियां **	2.0	2.0	2.3	1.4	1.8	1.6
8 चालू देयताओं की तुलना में त्वरित आस्तियां	149.2	130.2	147.1	55.5	62.3	53.5
9 कुल निवल आस्तियों की तुलना में चालू आस्तियां	51.2	55.4	57.0	50.3	58.4	60.9
10 चालू आस्तियों की तुलना में विविध लेनदार	18.3	16.5	13.2	26.0	22.1	21.9
11 निवल कार्यशील पूंजी की तुलना में विविध लेनदार	36.1	32.8	23.7	88.7	50.1	56.0
ग. आस्ति उपयोग और पण्यवर्त अनुपात						
12 कुल निवल आस्तियों की तुलना में बिक्री		69.7	65.9		113.0	122.1
13 सकल अचल आस्तियों की तुलना में बिक्री		259.1	254.7		267.0	309.0
14 बिक्री की तुलना में इवेंटरी	0.9	1.2	1.7	14.4	16.3	15.7
15 बिक्री की तुलना में विविध लेनदार	30.8	27.9	31.3	8.0	8.9	7.7
16 बिक्री की तुलना में निर्यात	4.7	7.7	8.2	6.8	6.3	8.7
17 सकल अचल आस्तियों की तुलना में सकल योजित मूल्य		169.1	175.3		50.1	51.4
18 उत्पादन मूल्य की तुलना में खपाए गए कच्चे माल	4.2	2.1	2.2	50.4	50.7	52.9
घ. निधियों के स्रोत और उपयोग के अनुपात@						
19 निधियों की कुल उपयोग की तुलना में सकल अचल आस्ति निर्माण		16.5	20.8		21.8	-15.8
20 निधियों के कुल उपयोग की तुलना में सकल पूंजी निर्माण		17.7	24.1		39.7	64.2
21 निधियों के कुल स्रोत की तुलना में निधियों के बाह्य स्रोत		48.2	20.8		52.9	10.5
22 कुल बाह्य स्रोत की तुलना में बैंक उधार राशि में वृद्धि		17.7	32.1		55.1	-294.8
23 सकल पूंजी निर्माण की तुलना में सकल बचत		414.3	361.6		73.5	262.7
ड. निधियों के स्रोत और उपयोग के अनुपात@						
24 कुल निवल आस्तियों की तुलना में ईबीआईटी	13.0	13.4	13.6	13.0	11.6	12.2
25 बिक्री की तुलना में ईबीआईटी	18.8	20.9	21.9	11.8	11.4	10.1
26 निवल मालियात की तुलना में निवल लाभ	16.6	17.7	16.6	14.5	15.4	15.0
27 बिक्री की तुलना में ईबीआईटीडीए	19.6	22.9	22.5	10.9	10.9	9.5
28 कर पूर्व लाभों की तुलना में कर प्रावधान*	15.8	17.0	17.6	34.5	30.5	30.9
29 निवल लाभ की तुलना में प्रतिधारित लाभ*	78.0	81.8	72.7	57.4	64.6	60.0
30 निवल मालियात की तुलना में लाभांश	3.9	3.3	4.5	6.4	5.5	6.1
31 साधारण प्रदत्त पूंजी की तुलना में सामान्य लाभांश	43.9	42.5	65.7	83.7	83.3	91.3

**विवरण 10: चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों की चुनिंदा मदों का चुनिंदा वित्तीय अनुपात - उद्योगवार,
2008-09 से 2010-11 (जारी)**

(प्रतिशत)

मद	रसायन तथा रासायनिक उत्पाद (78)			रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पाद (29)		
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
	13	14	15	16	17	18
क. पूंजीगत संरचना अनुपात						
1 कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल अचल आस्तियां	25.7	27.7	26.6	46.0	44.7	42.9
2 कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल मालियात	49.2	54.1	52.8	60.4	55.1	55.7
3 इक्विटी की तुलना में ऋण	16.4	14.1	14.4	19.6	32.9	28.5
4 इक्विटी की तुलना में ऋण (पुनर्मूल्यन रिजर्व बैंक के लिए समायोजित इक्विटी)	16.4	14.1	14.4	22.9	37.7	31.8
5 इन्वेंटरियों की तुलना में अल्पकालिक बैंक उधार	53.5	40.9	44.9	108.3	71.3	59.6
6 निवल मालियात की तुलना में कुल बाह्य देयताएं	103.2	85.0	89.4	65.6	81.6	79.5
ख. चलनिधि अनुपात						
7 चालू देयताओं की तुलना में चालू आस्तियां **	1.4	1.5	1.5	1.2	1.3	1.3
8 चालू देयताओं की तुलना में त्वरित आस्तियां	73.4	76.9	76.6	59.4	73.2	67.6
9 कुल निवल आस्तियों की तुलना में चालू आस्तियां	59.1	56.6	59.3	31.6	34.5	36.1
10 चालू आस्तियों की तुलना में विविध लेनदार	26.5	31.4	30.3	21.5	24.0	24.0
11 निवल कार्यशील पूंजी की तुलना में विविध लेनदार	89.6	92.5	87.5	163.4	103.8	109.8
ग. आस्ति उपयोग और पण्यवर्त अनुपात						
12 कुल निवल आस्तियां की तुलना में बिक्री		99.5	103.4		67.9	82.3
13 सकल अचल आस्तियों की तुलना में बिक्री		249.3	255.3		95.9	121.0
14 बिक्री की तुलना में इन्वेंटरी	17.1	16.9	18.7	12.3	14.6	14.7
15 बिक्री की तुलना में विविध लेनदार	16.7	15.4	14.9	14.7	13.5	13.2
16 बिक्री की तुलना में निर्यात	22.9	21.9	22.0	17.3	15.6	23.7
17 सकल अचल आस्तियों की तुलना में सकल योजित मूल्य		64.5	65.1		19.6	28.6
18 उत्पादन मूल्य की तुलना में खपाए गए कच्चे माल	49.7	47.0	48.3	65.2	64.1	62.1
घ. निधियों के स्रोत और उपयोग के अनुपात@						
19 निधियों की कुल उपयोग की तुलना में सकल अचल आस्ति निर्माण		55.5	28.6		46.1	41.7
20 निधियों के कुल उपयोग की तुलना में सकल पूंजी निर्माण		64.7	54.3		59.0	63.9
21 निधियों के कुल स्रोत की तुलना में निधियों के बाह्य स्रोत		6.9	48.0		61.9	32.6
22 कुल बाह्य स्रोत की तुलना में बैंक उधार राशि में वृद्धि		-125.5	32.7		22.2	36.6
23 सकल पूंजी निर्माण की तुलना में सकल बचत		134.1	101.8		60.2	93.7
ड. निधियों के स्रोत और उपयोग के अनुपात@						
24 कुल निवल आस्तियों की तुलना में ईबीआईटी	11.2	15.9	15.8	6.2	7.8	12.1
25 बिक्री की तुलना में ईबीआईटी	11.6	16.7	16.5	9.5	12.6	15.6
26 निवल मालियात की तुलना में निवल लाभ	17.2	21.2	21.6	4.8	8.9	12.5
27 बिक्री की तुलना में ईबीआईटीडीए	10.8	15.2	14.4	10.4	12.8	16.4
28 कर पूर्व लाभों की तुलना में कर प्रावधान*	31.5	27.5	26.0	29.4	23.9	30.7
29 निवल लाभ की तुलना में प्रतिधारित लाभ*	48.0	61.8	57.0	82.7	82.7	90.7
30 निवल मालियात की तुलना में लाभांश	8.8	8.0	9.3	0.9	1.6	1.3
31 साधारण प्रदत्त पूंजी की तुलना में सामान्य लाभांश	128.6	142.8	175.9	4.7	9.6	8.7

विवरण 10: चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों की चुनिंदा मदों का चुनिंदा वित्तीय अनुपात - उद्योगवार, 2008-09 से 2010-11 (जारी)

(प्रतिशत)

मद	मशीनरी तथा मशीनी औजार (66)			विद्युत मशीनरी तथा उपकरण (32)		
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
	19	20	21	22	23	24
क. पूंजीगत संरचना अनुपात						
1 कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल अचल आस्तियां	27.8	23.7	21.5	25.1	24.2	23.9
2 कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल मालियात	45.9	47.4	44.9	45.7	50.5	50.0
3 इक्विटी की तुलना में ऋण	16.7	13.6	15.0	10.8	6.9	5.4
4 इक्विटी की तुलना में ऋण (पुनर्मूल्यन रिजर्व बैंक के लिए समायोजित इक्विटी)	16.9	13.7	15.0	10.9	7.0	5.5
5 इन्वेंटरियों की तुलना में अल्पकालिक बैंक उधार	46.5	35.3	26.0	54.4	42.9	44.3
6 निवल मालियात की तुलना में कुल बाह्य देयताएं	117.7	111.1	122.7	119.0	98.1	100.1
ख. चलनिधि अनुपात						
7 चालू देयताओं की तुलना में चालू आस्तियां **	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4
8 चालू देयताओं की तुलना में त्वरित आस्तियां	82.4	88.8	78.7	87.9	95.5	88.3
9 कुल निवल आस्तियों की तुलना में चालू आस्तियां	67.4	69.6	70.8	67.4	66.7	66.8
10 चालू आस्तियों की तुलना में विविध लेनदार	27.6	26.8	31.0	30.7	31.0	31.1
11 निवल कार्यशील पूंजी की तुलना में विविध लेनदार	86.7	78.1	95.4	111.7	98.3	104.3
ग. आस्ति उपयोग और पण्यवर्त अनुपात						
12 कुल निवल आस्तियां की तुलना में बिक्री		99.4	106.0		128.9	123.8
13 सकल अचल आस्तियों की तुलना में बिक्री		193.3	223.1		319.4	315.8
14 बिक्री की तुलना में इन्वेंटरी	16.4	16.8	18.5	11.5	12.3	14.1
15 बिक्री की तुलना में विविध लेनदार	19.9	21.2	20.4	24.5	25.3	27.2
16 बिक्री की तुलना में निर्यात	22.2	17.6	17.9	13.1	13.0	11.6
17 सकल अचल आस्तियों की तुलना में सकल योजित मूल्य		50.3	53.8		68.9	61.1
18 उत्पादन मूल्य की तुलना में खपाए गए कच्चे माल	60.3	58.1	60.3	64.6	63.4	66.0
घ. निधियों के स्रोत और उपयोग के अनुपात@						
19 निधियों की कुल उपयोग की तुलना में सकल अचल आस्ति निर्माण		12.3	22.2		25.2	30.5
20 निधियों के कुल उपयोग की तुलना में सकल पूंजी निर्माण		18.1	48.0		39.0	53.8
21 निधियों के कुल स्रोत की तुलना में निधियों के बाह्य स्रोत		32.5	57.2		27.5	47.8
22 कुल बाह्य स्रोत की तुलना में बैंक उधार राशि में वृद्धि		-29.0	7.7		-23.6	27.0
23 सकल पूंजी निर्माण की तुलना में सकल बचत		375.6	97.4		205.2	104.3
ड. निधियों के स्रोत और उपयोग के अनुपात@						
24 कुल निवल आस्तियों की तुलना में ईबीआईटी	10.9	12.3	12.0	15.2	15.9	11.9
25 बिक्री की तुलना में ईबीआईटी	10.6	13.0	12.3	11.8	13.2	10.3
26 निवल मालियात की तुलना में निवल लाभ	13.6	15.6	16.4	19.9	20.8	15.8
27 बिक्री की तुलना में ईबीआईटीडीए	11.0	13.5	12.0	11.9	13.3	10.5
28 कर पूर्व लाभों की तुलना में कर प्रावधान*	37.3	35.5	33.1	34.2	31.3	30.5
29 निवल लाभ की तुलना में प्रतिधारित लाभ*	69.7	68.0	77.6	84.6	85.3	77.1
30 निवल मालियात की तुलना में लाभांश	4.7	5.3	4.3	3.0	3.1	3.6
31 साधारण प्रदत्त पूंजी की तुलना में सामान्य लाभांश	43.5	39.8	36.0	47.3	48.7	63.0

**विवरण 10: चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों की चुनिंदा मदों का चुनिंदा वित्तीय अनुपात - उद्योगवार,
2008-09 से 2010-11 (जारी)**

(प्रतिशत)

मद	मोटर गाड़ी तथा अन्य परिवहन उपस्कर (52)			निर्माण (22)		
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
	25	26	27	28	29	30
क. पूंजीगत संरचना अनुपात						
1 कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल अचल आस्तियां	38.7	36.4	34.1	17.1	15.5	13.5
2 कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल मालियात	46.6	48.9	50.0	33.0	32.9	27.9
3 इक्विटी की तुलना में ऋण	39.6	30.0	30.8	33.0	41.9	45.5
4 इक्विटी की तुलना में ऋण (पुनर्मूल्यन रिजर्व बैंक के लिए समायोजित इक्विटी)	41.1	31.0	31.6	33.9	42.8	46.4
5 इवेंटरियों की तुलना में अल्पकालिक बैंक उधार	41.8	31.9	16.4	53.3	42.6	46.4
6 निवल मालियात की तुलना में कुल बाह्य देयताएं	114.4	104.4	100.0	203.4	204.2	258.6
ख. चलनिधि अनुपात						
7 चालू देयताओं की तुलना में चालू आस्तियां **	1.4	1.3	1.4	1.2	1.3	1.1
8 चालू देयताओं की तुलना में त्वरित आस्तियां	76.8	68.7	73.6	39.1	46.0	34.0
9 कुल निवल आस्तियों की तुलना में चालू आस्तियां	48.0	45.8	47.4	67.5	70.0	66.8
10 चालू आस्तियों की तुलना में विविध लेनदार	37.5	37.4	38.3	22.2	21.8	19.5
11 निवल कार्यशील पूंजी की तुलना में विविध लेनदार	135.6	179.9	141.4	130.9	91.4	175.6
ग. आस्ति उपयोग और पण्यवर्त अनुपात						
12 कुल निवल आस्तियां की तुलना में बिक्री		142.9	152.6		68.8	52.6
13 सकल अचल आस्तियों की तुलना में बिक्री		234.5	258.4		325.5	271.3
14 बिक्री की तुलना में इवेंटरी	9.9	7.9	8.1	42.4	45.6	55.7
15 बिक्री की तुलना में विविध लेनदार	8.9	7.4	6.1	27.4	31.2	35.3
16 बिक्री की तुलना में निर्यात	16.8	15.2	11.2	0.7	0.9	0.5
17 सकल अचल आस्तियों की तुलना में सकल योजित मूल्य		43.4	45.5		64.0	53.8
18 उत्पादन मूल्य की तुलना में खपाए गए कच्चे माल	72.1	70.7	71.8	40.1	40.2	39.2
घ. निधियों के स्रोत और उपयोग के अनुपात@						
19 निधियों की कुल उपयोग की तुलना में सकल अचल आस्ति निर्माण		38.3	35.7		14.1	10.3
20 निधियों के कुल उपयोग की तुलना में सकल पूंजी निर्माण		40.1	49.1		41.9	28.5
21 निधियों के कुल स्रोत की तुलना में निधियों के बाह्य स्रोत		10.4	45.1		81.4	90.4
22 कुल बाह्य स्रोत की तुलना में बैंक उधार राशि में वृद्धि		-8.3	-7.3		7.2	18.2
23 सकल पूंजी निर्माण की तुलना में सकल बचत		161.0	119.2		44.6	40.2
ड. निधियों के स्रोत और उपयोग के अनुपात@						
24 कुल निवल आस्तियों की तुलना में ईबीआईटी	9.5	15.2	14.7	6.8	6.2	4.4
25 बिक्री की तुलना में ईबीआईटी	8.0	11.3	10.3	10.4	10.0	9.4
26 निवल मालियात की तुलना में निवल लाभ	13.5	20.5	19.6	9.7	8.8	4.9
27 बिक्री की तुलना में ईबीआईटीडीए	8.7	11.9	10.8	10.1	9.3	7.9
28 कर पूर्व लाभों की तुलना में कर प्रावधान*	28.8	31.5	28.8	30.0	30.5	35.6
29 निवल लाभ की तुलना में प्रतिधारित लाभ*	72.3	58.1	62.0	95.1	95.8	91.1
30 निवल मालियात की तुलना में लाभांश	3.8	8.6	7.6	0.5	0.4	0.5
31 साधारण प्रदत्त पूंजी की तुलना में सामान्य लाभांश	42.4	107.2	105.0	3.6	3.3	4.7

**विवरण 10: चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों की चुनिंदा मदों का चुनिंदा वित्तीय अनुपात - उद्योगवार,
2008-09 से 2010-11 (समाप्त)**

(प्रतिशत)

मद	शोक तथा खुदरा व्यापार (24)			परिवहन, भंडारण और संचार (23)		
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
	31	32	33	34	35	36
क. पूंजीगत संरचना अनुपात						
1 कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल अचल आस्तियां	7.7	7.0	6.8	50.1	53.1	50.8
2 कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल मालियात	37.0	39.8	38.8	42.5	44.8	40.6
3 इक्विटी की तुलना में ऋण	5.6	6.2	3.8	64.0	61.6	58.9
4 इक्विटी की तुलना में ऋण (पुनर्मूल्यन रिजर्व बैंक के लिए समायोजित इक्विटी)	5.6	6.2	3.8	66.1	63.3	60.3
5 इवेंटिरियों की तुलना में अल्पकालिक बैंक उधार	17.5	29.4	27.2	#	#	#
6 निवल मालियात की तुलना में कुल बाह्य देयताएं	170.6	151.0	157.5	135.4	123.1	146.0
ख. चलनिधि अनुपात						
7 चालू देयताओं की तुलना में चालू आस्तियां **	1.4	1.5	1.5	1.0	0.9	0.6
8 चालू देयताओं की तुलना में त्वरित आस्तियां	79.8	95.4	82.0	74.1	51.4	25.9
9 कुल निवल आस्तियों की तुलना में चालू आस्तियां	87.5	87.3	87.1	30.7	24.3	21.1
10 चालू आस्तियों की तुलना में विविध लेनदार	30.3	28.7	34.7	32.0	43.3	51.6
11 निवल कार्यशील पूंजी की तुलना में विविध लेनदार	99.2	84.5	102.6	#	-333.6	-76.6
ग. आस्ति उपयोग और पण्यवर्त अनुपात						
12 कुल निवल आस्तियां की तुलना में बिक्री		176.2	186.1		44.5	46.5
13 सकल अचल आस्तियों की तुलना में बिक्री		#	#		63.0	62.9
14 बिक्री की तुलना में इवेंटरी	15.1	14.5	14.6	1.3	1.2	1.2
15 बिक्री की तुलना में विविध लेनदार	18.8	18.5	16.2	10.8	10.4	9.9
16 बिक्री की तुलना में निर्यात	2.1	2.7	2.2	-	0.1	0.2
17 सकल अचल आस्तियों की तुलना में सकल योजित मूल्य		212.1	135.5		22.0	18.3
18 उत्पादन मूल्य की तुलना में खपाए गए कच्चे माल	90.5	89.7	87.0	1.3	0.2	0.1
घ. निधियों के स्रोत और उपयोग के अनुपात@						
19 निधियों की कुल उपयोग की तुलना में सकल अचल आस्ति निर्माण		3.5	9.8		116.4	52.5
20 निधियों के कुल उपयोग की तुलना में सकल पूंजी निर्माण		6.3	57.5		116.4	52.8
21 निधियों के कुल स्रोत की तुलना में निधियों के बाह्य स्रोत		42.0	84.0		7.1	84.4
22 कुल बाह्य स्रोत की तुलना में बैंक उधार राशि में वृद्धि		47.7	12.8		-62.8	59.4
23 सकल पूंजी निर्माण की तुलना में सकल बचत		#	68.2		95.8	82.1
ड. निधियों के स्रोत और उपयोग के अनुपात@						
24 कुल निवल आस्तियों की तुलना में ईबीआईटी	9.2	14.4	6.2	5.0	6.5	3.8
25 बिक्री की तुलना में ईबीआईटी	5.1	8.9	3.5	11.6	15.0	8.7
26 निवल मालियात की तुलना में निवल लाभ	11.4	22.0	9.4	9.4	10.7	3.8
27 बिक्री की तुलना में ईबीआईटीडीए	-5.5	-3.3	-0.6	20.4	23.5	19.9
28 कर पूर्व लाभों की तुलना में कर प्रावधान*	41.9	35.4	36.9	10.6	8.8	7.4
29 निवल लाभ की तुलना में प्रतिधारित लाभ*	83.3	91.7	82.0	94.1	95.6	94.2
30 निवल मालियात की तुलना में लाभांश	2.0	1.8	1.7	0.8	0.6	0.7
31 साधारण प्रदत्त पूंजी की तुलना में सामान्य लाभांश	10.0	11.9	11.6	3.6	3.2	3.3

**विवरण 11 : चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों की चुनिंदा मदों का चुनिंदा वित्तीय अनुपात - उद्योगवार,
2008-09 से 2010-11**

(प्रतिशत)

मद	फ्रांस (16)			जर्मनी (61)		
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
	1	2	3	4	5	6
क. पूंजीगत संरचना अनुपात						
1 कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल अचल आस्तियां	49.1	51.5	50.0	26.1	24.4	23.3
2 कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल मालियात	43.3	43.5	41.7	41.5	45.3	44.4
3 इक्विटी की तुलना में ऋण	22.8	32.9	31.5	31.9	30.6	26.0
4 इक्विटी की तुलना में ऋण (पुनर्मूल्यन रिजर्व बैंक के लिए समायोजित इक्विटी)	22.8	32.9	31.5	32.0	30.7	26.1
5 इवेंटरियों की तुलना में अल्पकालिक बैंक उधार	174.0	102.3	96.1	47.1	32.2	33.3
6 निवल मालियात की तुलना में कुल बाह्य देयताएं	131.0	129.9	140.0	140.9	120.6	125.4
ख. चलनिधि अनुपात						
7 चालू देयताओं की तुलना में चालू आस्तियां **	1.0	1.0	0.9	1.4	1.7	1.5
8 चालू देयताओं की तुलना में त्वरित आस्तियां	60.3	61.7	55.5	78.0	83.9	74.2
9 कुल निवल आस्तियों की तुलना में चालू आस्तियां	45.6	42.4	41.6	65.1	67.2	67.9
10 चालू आस्तियों की तुलना में विविध लेनदार	26.4	28.6	31.3	27.7	25.6	26.8
11 निवल कार्यशील पूंजी की तुलना में विविध लेनदार	#	#	-366.5	90.1	64.8	76.0
ग. आस्ति उपयोग और पण्यवर्त अनुपात						
12 कुल निवल आस्तियां की तुलना में बिक्री		135.9	134.9		83.7	83.5
13 सकल अचल आस्तियों की तुलना में बिक्री		214.4	211.1		202.9	208.1
14 बिक्री की तुलना में इवेंटरी	8.2	5.3	5.4	25.0	26.8	28.9
15 बिक्री की तुलना में विविध लेनदार	16.0	14.4	16.7	28.2	26.6	24.7
16 बिक्री की तुलना में निर्यात	8.6	5.8	6.5	10.3	8.2	7.2
17 सकल अचल आस्तियों की तुलना में सकल योजित मूल्य		34.7	32.2		53.5	55.0
18 उत्पादन मूल्य की तुलना में खपाए गए कच्चे माल	71.5	76.0	76.6	52.7	53.0	54.8
घ. निधियों के स्रोत और उपयोग के अनुपात@						
19 निधियों की कुल उपयोग की तुलना में सकल अचल आस्ति निर्माण		68.5	49.5		25.5	28.8
20 निधियों के कुल उपयोग की तुलना में सकल पूंजी निर्माण		59.4	55.7		45.0	57.2
21 निधियों के कुल स्रोत की तुलना में निधियों के बाह्य स्रोत		51.5	56.8		24.1	50.8
22 कुल बाह्य स्रोत की तुलना में बैंक उधार राशि में वृद्धि		44.5	16.4		-30.0	10.3
23 सकल पूंजी निर्माण की तुलना में सकल बचत		83.3	79.9		148.2	87.9
ङ. निधियों के स्रोत और उपयोग के अनुपात@						
24 कुल निवल आस्तियों की तुलना में ईबीआईटी	16.9	13.2	11.7	10.5	10.9	10.7
25 बिक्री की तुलना में ईबीआईटी	14.0	10.6	9.4	12.5	13.8	13.8
26 निवल मालियात की तुलना में निवल लाभ	24.3	17.6	16.2	15.4	16.7	15.2
27 बिक्री की तुलना में ईबीआईटीडीए	15.2	11.9	11.1	-2.3	-0.5	2.2
28 कर पूर्व लाभों की तुलना में कर प्रावधान*	34.0	29.9	30.1	35.8	29.6	33.0
29 निवल लाभ की तुलना में प्रतिधारित लाभ*	84.7	81.8	78.5	84.2	84.1	77.4
30 निवल मालियात की तुलना में लाभांश	3.7	3.0	3.4	2.4	2.7	3.4
31 साधारण प्रदत्त पूंजी की तुलना में सामान्य लाभांश	12.7	12.8	16.4	21.0	27.4	40.2

* : उन कंपनियों के आधार पर की गई है जिन्हें वर्ष के दौरान लाभ हुआ।

** : मद ख.7 चालू देयताओं की तुलना में चालू आस्तियों का वास्तविक अनुपात है।

@ : दो वर्ष के लिए उपलब्ध क्योंकि ये स्रोतों एवं निधियों के उपयोग पर आधारित है जिसमें दो लगातार वर्षों में अंतर है। इस अनुपात को पुनर्मूल्यन आदि के लिए समायोजित किया गया है।

: अंश अथवा हर ऋणात्मक अथवा शून्य अथवा नगण्य हैं।

^ : वर्ष के दौरान कुल औसत निवल आस्तियों और सकल अचल आस्तियों के आधार पर गणना की गई है। इसलिए, वर्ष 2008-09 के अनुपात उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े कंपनियों की संख्या दर्शाते हैं।

**विवरण 11: चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों की चुनिंदा मदों का चुनिंदा वित्तीय अनुपात - उद्योगवार,
2008-09 से 2010-11 (जारी)**

(प्रतिशत)

मद	यूएसए (114)			यूके (66)		
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
	7	8	9	10	11	12
क. पूंजीगत संरचना अनुपात						
1 कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल अचल आस्तियां	33.9	24.2	22.5	38.8	35.3	33.8
2 कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल मालियात	50.2	55.2	54.4	54.2	51.7	52.7
3 इक्विटी की तुलना में ऋण	31.5	23.1	17.1	12.5	16.4	13.9
4 इक्विटी की तुलना में ऋण (पुनर्मूल्यन रिजर्व बैंक के लिए समायोजित इक्विटी)	31.7	23.3	17.2	14.0	18.0	15.1
5 इवेंटरियों की तुलना में अल्पकालिक बैंक उधार	24.5	14.4	24.8	41.0	26.8	18.8
6 निवल मालियात की तुलना में कुल बाह्य देयताएं	99.1	81.0	83.9	84.4	93.4	89.7
ख. चलनिधि अनुपात						
7 चालू देयताओं की तुलना में चालू आस्तियां **	1.6	1.7	1.6	1.3	1.2	1.3
8 चालू देयताओं की तुलना में त्वरित आस्तियां	74.2	84.0	77.0	62.0	65.2	71.7
9 कुल निवल आस्तियों की तुलना में चालू आस्तियां	54.7	55.0	58.0	50.4	47.3	51.0
10 चालू आस्तियों की तुलना में विविध लेनदार	19.4	18.5	19.2	33.6	37.8	34.8
11 निवल कार्यशील पूंजी की तुलना में विविध लेनदार	50.5	43.5	50.5	133.5	213.7	149.9
ग. आस्ति उपयोग और पण्यवर्त अनुपात						
12 कुल निवल आस्तियां की तुलना में बिक्री		79.4	77.3		97.0	95.4
13 सकल अचल आस्तियों की तुलना में बिक्री		173.2	200.2		183.4	190.9
14 बिक्री की तुलना में इवेंटरी	25.3	24.7	30.1	16.6	14.7	15.6
15 बिक्री की तुलना में विविध लेनदार	14.8	12.8	17.2	11.1	13.0	12.3
16 बिक्री की तुलना में निर्यात	16.6	16.5	17.2	12.6	10.9	12.6
17 सकल अचल आस्तियों की तुलना में सकल योजित मूल्य		58.7	65.9		56.2	58.6
18 उत्पादन मूल्य की तुलना में खपाए गए कच्चे माल	43.0	41.4	47.5	40.5	40.5	40.4
घ. निधियों के स्रोत और उपयोग के अनुपात@						
19 निधियों की कुल उपयोग की तुलना में सकल अचल आस्ति निर्माण		279.2	19.8		26.4	34.7
20 निधियों के कुल उपयोग की तुलना में सकल पूंजी निर्माण		271.4	54.8		28.2	53.8
21 निधियों के कुल स्रोत की तुलना में निधियों के बाह्य स्रोत		64.5	52.1		55.5	42.8
22 कुल बाह्य स्रोत की तुलना में बैंक उधार राशि में वृद्धि		140.1	19.0		-12.0	-0.3
23 सकल पूंजी निर्माण की तुलना में सकल बचत		-87.4	107.4		109.6	107.0
ङ. निधियों के स्रोत और उपयोग के अनुपात@						
24 कुल निवल आस्तियों की तुलना में ईबीआईटी	13.0	16.3	13.1	18.0	17.2	18.0
25 बिक्री की तुलना में ईबीआईटी	17.1	20.4	18.0	19.3	19.7	20.1
26 निवल मालियात की तुलना में निवल लाभ	17.0	20.3	15.6	22.2	21.7	22.8
27 बिक्री की तुलना में ईबीआईटीडीए	16.7	20.3	17.3	18.7	19.4	19.7
28 कर पूर्व लाभों की तुलना में कर प्रावधान*	26.9	26.5	29.9	29.1	32.5	30.8
29 निवल लाभ की तुलना में प्रतिधारित लाभ*	74.9	76.6	59.7	60.0	43.3	50.3
30 निवल मालियात की तुलना में लाभांश	4.4	4.9	6.6	9.5	13.1	11.6
31 साधारण प्रदत्त पूंजी की तुलना में सामान्य लाभांश	43.5	48.9	72.0	156.5	253.2	219.4

**विवरण 11 : चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों की चुनिंदा मदों का चुनिंदा वित्तीय अनुपात - उद्योगवार,
2008-09 से 2010-11 (जारी)**

(प्रतिशत)

मद	स्विटजरलैंड (25)			नीदरलैंड (31)		
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
	13	14	15	16	17	18
क. पूंजीगत संरचना अनुपात						
1 कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल अचल आस्तियां	33.1	34.7	37.2	20.2	18.8	17.3
2 कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल मालियात	43.0	45.6	44.6	49.2	51.9	51.8
3 इक्विटी की तुलना में ऋण	28.6	32.3	31.3	6.3	4.0	3.1
4 इक्विटी की तुलना में ऋण (पुनर्मूल्यन रिजर्व बैंक के लिए समायोजित इक्विटी)	28.8	32.4	31.4	6.3	4.0	3.1
5 इवेंटोरियों की तुलना में अल्पकालिक बैंक उधार	26.4	29.6	23.7	22.8	11.2	17.3
6 निवल मालियात की तुलना में कुल बाह्य देयताएं	132.4	119.4	124.3	103.2	92.5	93.0
ख. चलनिधि अनुपात						
7 चालू देयताओं की तुलना में चालू आस्तियां **	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6
8 चालू देयताओं की तुलना में त्वरित आस्तियां	77.5	90.2	83.2	78.6	84.7	82.7
9 कुल निवल आस्तियों की तुलना में चालू आस्तियां	58.5	57.3	57.4	72.0	73.3	73.2
10 चालू आस्तियों की तुलना में विविध लेनदार	36.1	31.5	34.7	40.3	37.7	37.5
11 निवल कार्यशील पूंजी की तुलना में विविध लेनदार	135.3	91.6	111.0	115.1	98.3	99.8
ग. आस्ति उपयोग और पण्यवर्त अनुपात						
12 कुल निवल आस्तियां की तुलना में बिक्री		109.0	106.2		125.5	130.1
13 सकल अचल आस्तियों की तुलना में बिक्री		188.8	174.7		334.3	366.5
14 बिक्री की तुलना में इवेंटरी	11.9	12.9	13.6	11.3	12.4	13.1
15 बिक्री की तुलना में विविध लेनदार	19.4	18.1	16.9	15.1	14.2	14.9
16 बिक्री की तुलना में निर्यात	10.4	10.4	10.6	15.2	10.0	11.2
17 सकल अचल आस्तियों की तुलना में सकल योजित मूल्य		52.7	42.1		89.6	95.9
18 उत्पादन मूल्य की तुलना में खपाए गए कच्चे माल	51.7	50.2	53.6	58.8	56.1	56.8
घ. निधियों के स्रोत और उपयोग के अनुपात@						
19 निधियों की कुल उपयोग की तुलना में सकल अचल आस्ति निर्माण		54.8	67.1		20.8	18.4
20 निधियों के कुल उपयोग की तुलना में सकल पूंजी निर्माण		64.4	81.1		44.9	36.6
21 निधियों के कुल स्रोत की तुलना में निधियों के बाह्य स्रोत		36.2	42.9		12.1	44.6
22 कुल बाह्य स्रोत की तुलना में बैंक उधार राशि में वृद्धि		46.5	-1.5		-125.4	14.6
23 सकल पूंजी निर्माण की तुलना में सकल बचत		85.5	76.3		245.6	168.0
ङ. निधियों के स्रोत और उपयोग के अनुपात@						
24 कुल निवल आस्तियों की तुलना में ईबीआईटी	17.5	16.4	12.2	12.5	15.3	14.7
25 बिक्री की तुलना में ईबीआईटी	16.0	16.5	12.2	10.3	12.7	12.3
26 निवल मालियात की तुलना में निवल लाभ	25.1	23.2	18.8	15.9	19.7	19.3
27 बिक्री की तुलना में ईबीआईटीडीए	16.7	19.0	14.3	10.0	12.4	11.6
28 कर पूर्व लाभों की तुलना में कर प्रावधान*	33.5	30.9	29.6	36.0	34.4	32.7
29 निवल लाभ की तुलना में प्रतिधारित लाभ*	66.5	67.3	60.2	72.2	77.2	78.2
30 निवल मालियात की तुलना में लाभांश	8.4	7.6	7.5	4.7	4.6	4.3
31 साधारण प्रदत्त पूंजी की तुलना में सामान्य लाभांश	109.4	89.5	94.5	23.9	26.3	28.5

विवरण 11: चुनिंदा 745 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाली कंपनियों की चुनिंदा मदों का चुनिंदा वित्तीय अनुपात - उद्योगवार, 2008-09 से 2010-11 (समाप्त)

(प्रतिशत)

मद	जापान (52)			मॉरीशस (179)		
	2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
	19	20	21	22	23	24
क. पूंजीगत संरचना अनुपात						
1 कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल अचल आस्तियां	46.6	48.8	44.4	41.8	42.8	40.5
2 कुल निवल आस्तियों की तुलना में निवल मालियात	40.0	39.8	39.0	46.9	49.4	48.3
3 इक्विटी की तुलना में ऋण	52.2	57.7	51.5	38.6	39.4	37.6
4 इक्विटी की तुलना में ऋण (पुनर्मूल्यन रिजर्व बैंक के लिए समायोजित इक्विटी)	52.3	57.8	51.5	39.2	39.9	37.9
5 इवेंटिरियों की तुलना में अल्पकालिक बैंक उधार	164.1	88.6	109.5	109.5	107.2	131.1
6 निवल मालियत की तुलना में कुल बाह्य देयताएं	150.1	151.0	156.3	113.1	102.2	107.0
ख. चलनिधि अनुपात						
7 चालू देयताओं की तुलना में चालू आस्तियां **	1.0	0.9	0.9	1.1	1.3	1.1
8 चालू देयताओं की तुलना में त्वरित आस्तियां	69.8	51.8	45.4	60.4	67.6	50.8
9 कुल निवल आस्तियों की तुलना में चालू आस्तियां	40.9	33.2	34.7	39.8	40.2	38.0
10 चालू आस्तियों की तुलना में विविध लेनदार	24.0	32.3	30.4	30.0	28.1	29.4
11 निवल कार्यशील पूंजी की तुलना में विविध लेनदार	#	-278.8	-174.1	239.6	122.0	238.3
ग. आस्ति उपयोग और पण्यवर्त अनुपात						
12 कुल निवल आस्तियां की तुलना में बिक्री		89.9	97.4		63.7	60.4
13 सकल अचल आस्तियों की तुलना में बिक्री		131.8	143.6		105.0	100.4
14 बिक्री की तुलना में इवेंटरी	9.6	8.7	9.7	11.1	11.0	13.3
15 बिक्री की तुलना में विविध लेनदार	8.8	7.4	7.2	16.8	18.0	17.7
16 बिक्री की तुलना में निर्यात	13.5	12.2	10.0	10.1	8.4	8.9
17 सकल अचल आस्तियों की तुलना में सकल योजित मूल्य		26.2	24.8		33.5	29.1
18 उत्पादन मूल्य की तुलना में खपाए गए कच्चे माल	61.5	61.2	63.6	31.6	31.3	33.5
घ. निधियों के स्रोत और उपयोग के अनुपात@						
19 निधियों की कुल उपयोग की तुलना में सकल अचल आस्ति निर्माण		82.7	37.2		57.5	40.1
20 निधियों के कुल उपयोग की तुलना में सकल पूंजी निर्माण		91.9	48.6		59.6	50.5
21 निधियों के कुल स्रोत की तुलना में निधियों के बाह्य स्रोत		15.8	73.2		49.5	63.2
22 कुल बाह्य स्रोत की तुलना में बैंक उधार राशि में वृद्धि		-90.8	25.0		34.4	40.2
23 सकल पूंजी निर्माण की तुलना में सकल बचत		71.6	53.1		85.4	84.7
ङ. निधियों के स्रोत और उपयोग के अनुपात@						
24 कुल निवल आस्तियों की तुलना में ईबीआईटी	2.8	9.6	7.2	9.5	10.4	7.9
25 बिक्री की तुलना में ईबीआईटी	3.8	11.1	8.1	14.7	17.7	14.3
26 निवल मालियत की तुलना में निवल लाभ	0.7	14.7	8.6	13.1	13.9	10.8
27 बिक्री की तुलना में ईबीआईटीडीए	6.9	12.5	10.3	16.7	19.5	17.5
28 कर पूर्व लाभों की तुलना में कर प्रावधान*	41.8	28.3	26.3	18.6	18.8	18.5
29 निवल लाभ की तुलना में प्रतिधारित लाभ*	65.3	63.7	63.0	86.1	88.0	86.1
30 निवल मालियत की तुलना में लाभांश	1.8	6.5	5.7	2.0	1.8	1.5
31 साधारण प्रदत्त पूंजी की तुलना में सामान्य लाभांश	10.8	42.7	41.7	16.5	15.9	15.6

अनुबंध विभिन्न विवरणों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के भुगतान संतुलन तथा अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति से संबंधित मैन्युअल के छोटे संस्करण (बीपीएम 6) के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमापार निवेश का किसी एक अर्थव्यवस्था से संबद्ध निवासी से जुड़ा ऐसा निवेश है जिसमें अन्य अर्थव्यवस्था में स्थित किसी संस्थान पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता हो अथवा उसके प्रबंधन पर उल्लेखनीय रूप से प्रभाव डाला जा सकता हो। इसके अलावा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामले में निवेशक की यह रुचि होती है कि वह उद्यम के प्रबंधन में प्रभावी भूमिका निभाए। उद्यम के प्रबंधन में प्रभावी भूमिका के संबंध में यह प्रायः माना ही जाता है कि उसमें कुछ हद तक इक्विटी में हिस्सेदारी होगी। बीपीएम-6 दर्शाता है कि 'तात्कालिक प्रत्यक्ष निवेश का संबंध तब स्थापित होता है जब एक प्रत्यक्ष निवेशक प्रत्यक्ष रूप से इतनी इक्विटी प्राप्त कर लेता है कि उसे उद्यम में 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक के मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाए।
- सभी मर्दों की वृद्धि दरें तथा निधि के स्रोत और उपयोग संबंधी आंकड़े कंपनियों के समामेलन के कारण हुए परिवर्तन के लिए समायोजित किए गए हैं। जहां कहीं आवश्यक हुआ, सभी मर्दों को पुनर्मूल्यन आदि के लिए समायोजित किया गया है।
- आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण, हो सकता है कि घटक मर्दों का जोड़ कुल से मेल न खाए।
- **बिक्री** के आंकड़े 'बढ़ा और छूट' तथा 'उत्पाद-शुल्क और उपकरण' को घटाकर हैं।
- **विनिर्माण व्यय** में निम्नलिखित शामिल हैं : (क) कच्चे माल, खपाए गए पुर्जे आदि (ख) भंडार और खपाए गए पुर्जे आदि, (ग) पावर और ईंधन तथा (घ) अन्य विनिर्माण व्यय।
- **कच्चे माल, खपाए गए पुर्जे आदि** में व्यापारिक कंपनियों के मामलों में व्यापारिक माल की खरीद शामिल है तथा होटलों, रेस्तरांओं और भोजनालयों के मामले में भंडारों तथा खाद्य सामग्रियों की खपत शामिल है।
- **अन्य विनिर्माण व्ययों** में निर्माण कंपनियों के निर्माण व्यय तथा पोत-लदान कंपनियों के परिचालनात्मक व्यय आदि शामिल हैं।
- **कर्मचारियों के पारिश्रमिक** में निम्नलिखित शामिल हैं - (क) वेतन, मजदूरी तथा बोनस (ख) भविष्य निधि और (ग) कर्मचारी कल्याण व्यय।
- **परिचालनेतर अधिशेष / घाटे में** (क) निम्नलिखित के कारण लाभ/हानि - (i) अचल आस्तियों, निवेशों आदि की बिक्री तथा (ii) विदेशी मुद्रा के पुनर्मूल्यन / अवमूल्यन, (ख) अनपेक्षित प्रावधान जिन्हें प्रतिलिखित किया गया, (ग) वसूले गए बीमा संबंधी दावे तथा (घ) पिछले सालों से संबंधित आय तथा व्यय और गैर चालू स्वरूप की ऐसी अन्य मर्दें।
- **इबीआईटीडीए** ब्याज, कर, मूल्यहास प्रावधान और परिशोधन की आय है, फिर भी अन्य आय एवं परिचालनेतर अधिशेष/ घाटे को घटा दिया गया है।
- **सकल लाभ (इबीआईटी)** को ब्याज और कर से पहले निवल मूल्यहास प्रावधान है इसमें अन्य आय भी शामिल है।
- **सकल बचत** को प्रतिधारित लाभ तथा मूल्यहास प्रावधान के योग के रूप में मापा गया है।
- **सकल योजित मूल्य में** (क) निवल योजित मूल्य तथा (ख) मूल्यहास प्रावधान शामिल हैं।
- **निवल योजित मूल्य में** निम्नलिखित शामिल हैं : (क) वेतन, मजदूरी तथा बोनस, (ख) भविष्य निधि, (ग) कर्मचारी कल्याण व्यय, (घ) प्रबंधकीय पारिश्रमिक, (ङ) प्रदत्त किराया, प्राप्त किराए को घटाकर, (च) प्रदत्त ब्याज, प्राप्त ब्याज को घटाकर, (छ) कर प्रावधान, (ज) प्राप्त लाभांश को घटाकर प्रदत्त लाभांश तथा (झ) प्रतिधारित लाभ, परिचालनेतर अधिशेष / घाटा घटाकर।
- **ऋण** में निम्नलिखित शामिल हैं : (क) सरकारी और अर्ध-सरकारी निकायों, बैंकों तथा विदेशी संस्थागत एजेंसियों से इतर वित्तीय संस्थाओं से लिए गए सभी उधार, (ख) बंधक तथा अन्य दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की जजमानत पर बैंकों से लिए गए उधार, (ग) बंधक तथा अन्य दीर्घकालिक प्रतिभूतियों की जजमानत पर कंपनियों तथा अन्यो से लिए गए उधार, (घ) डिबेंचर, आस्थगित भुगतान देयताएं तथा सार्वजनिक जजमारशियां।
- **इक्विटी या निवल मालियत** में निम्नलिखित शामिल हैं : (क) प्रदत्त पूंजी, (ख) जजब्त किए गए शेयर तथा (ग) सभी प्रारक्षित निधियां और अधिशेष।
- **चालू देयताओं** में निम्नलिखित शामिल हैं : (क) बैंकों से अल्पावधि उधार, (ख) कंपनियों तथा अन्य से गैर-जजमानती ऋण और अन्य अल्पावधिक उधार, (ग) व्यापार देयताएं और अन्य चालू देयताएं और, (घ) आयकर अग्रिम से अधिक कर प्रावधान और अन्य चालू प्रावधान
- **त्वरित आस्तियों में** निम्नलिखित शामिल हैं : (क) विविध देनदार, (ख) उद्धृत निवेशों के बही मूल्य तथा (ग) नकदी और बैंक शेषराशियां।
- **पूंजीगत आरक्षित निधियों** में निवेशों और अचल आस्तियों की बिक्री से हुए लाभ शामिल हैं।
- **इक्विटी या निवल मालियत** में निम्नलिखित शामिल हैं : (क) प्रदत्त पूंजी, (ख) जजब्त किए गए शेयर तथा (ग) सभी प्रारक्षित निधियां और अधिशेष।
- **चालू आस्तियों** में निम्नलिखित शामिल हैं : (क) इन्वेंटरी, (ख) ऋण तथा अग्रिम और अन्य देनदार शेष, (ग) उद्धृत निवेशों का बही मूल्य, (घ) नकदी तथा बैंक शेषराशियां और (ङ) कर प्रावधान से अधिक आयकर अग्रिम।
- **अन्य आरक्षित निधियों** में विभिन्न विनिर्दिष्ट आरक्षित निधि के रूप में प्रतिधारित लाभ तथा तुलनपत्र में लाए गए लाभ / हानि शामिल हैं।
- **डिबेंचरों में** वित्तीय संस्थाओं के पास निजी तौर पर रखे गए डिबेंचर शामिल हैं।
- **आंतरिक स्रोत** : ये स्वयं के वे स्रोत हैं जिनमें पूंजीकृत रिजर्व, प्रतिधारित लाभ, मूल्यहास प्रावधान तथा अन्य प्रावधान शामिल हैं।
- **बाह्य स्रोत** : ये स्वयं के स्रोतों से इतर वे स्रोत हैं जिनमें पूंजी बाजार से जुटाई गई निधियां, उधार की निधियां, व्यापार संबंधी देयताएं तथा चालू देयताएं एवं विविध गैर-चालू देयताएं शामिल हैं।